Daily THE PHOTON NEWS

सच के हक में...

Published from Ranchi

Ranchi ● Wednesday, 28 June 2023 ● Year : 01 ● Issue : 162 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : 3 ● www.thephotonnews.com E-Paper : epaper.thephotonnews.com

सुविचार

जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा।

प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में आए बदलाव मुझे...

SHARE

सेंसेक्स	:	63,416.03
निफ्टी	:	18,817.40

SARAFA

सोना	:	5,580
चांदी	:	75.07

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

खराब मौसम के चलते देवघर नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खराब मौसम के कारण मंगलवार को देवघर नहीं पहुंच पाए। देवघर में मुख्यमंत्री 524 करोड़ की लागत से सिकटिया मेगा लिफ्ट एरिगेशन योजना का शिलान्यास करना था लेकिन खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रांची से उड़ान नहीं भर पाया। इस कारण शिलान्यास कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, पूर्व विधायक चुन्ना सिंह, झामुमो नेता परिमल सिंह, जिप अध्यक्ष किरण देवी समेत जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री, डीडीसी डॉ कुमार ताराचंद, एसडीओ आशीष अग्रवाल, प्रशिक्षु आईएएस अनिमेष रंजन समेत अन्य पदाधिकारी पहुंच गए थे।

हजारीबाग में चार हजार घूस लेते वनरक्षी गिरफ्तार

HAZARIBAGH : एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने मंगलवार को वनरक्षी को चार हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। कोडरमा वन प्रमंडल में तैनात वनरक्षी अमरेंद्र कुमार यूकेलिप्टस पेड़ के एवज में घूस की मांग कर रहा था। मामले को लेकर पीड़ित सूरज कुमार ने एसीबी से शिकायत की थी कि अर्जुन मोदी के रैयती भूमि पर लगे युकेलिप्टस के पेड़ खरीदा, जिसका टीपी फ्री होता है, जिसे परिवहन कर चिराने के लिये आरा मिल ले जाना होता है। इसके लिये वनरक्षी का परमिशन आवश्यक है। परमिशन के लिये वनरक्षी पांच हजार रुपये घूस मांग रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी हजारीबाग से की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की जांच की।

मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया

KULGAM : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के हुवरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान घायल हो गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। इस अधिकारी ने बताया कि हुवरा गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की पक्की सूचना पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने रात को अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी की। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। देररात अंधेरा घना होने के कारण मुठभेड़ बंद हो गई।

रांची-पटना के बीच चलने लगी वंदे भारत EXPRESS

झारखंड को सौगात : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कुल पांच वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ रवाना किया। झारखंड-बिहार को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। रांची से चलने के बाद वंदे भारत ट्रेन पहले दिन पटना 30 मिनट लेट पहुंची। इस ट्रेन को पटना जंक्शन शाम 5:15 बजे पहुंचना था, लेकिन शाम 5:45 बजे पहुंची। आज से यह ट्रेन अपने नियमित समय सुबह 7 बजे रांची के लिए खुलेगी। ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में छह दिन चलेगी। ट्रेन को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा।

संबंधित खबर पेज 3 पर

दूसरे समन पर भी हाजिर नहीं हुए कारा अधीक्षक

जेल का सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने पर ईडी से हो रहा लुकाछिपी का खेल

CRIME REPORTER RANCHI : जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को खुलकर मदद करने, जेल मैनुअल से इतर हर तरह की सुविधाएं पहुंचाने के मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय होटवार कारा के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर की परेशानियां बढ़ने वाली है। ईडी ने उन्हें समन कर मंगलवार को पूछताछ के लिए ईडी की रांची एयरपोर्ट रोड स्थित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जेल अधीक्षक को ईडी ने समन भेजा और वे ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। ईडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज मांगा था, लेकिन जेल प्रशासन ने अबतक ईडी को फुटेज मुहैया नहीं कराया है। ईडी ने जेल अधीक्षक से

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की 11 मई 2022 की गिरफ्तारी के बाद का सीसीटीवी फुटेज मांगा था। सीसीटीवी फुटेज मुहैया नहीं कराने पर ईडी ने विशेष अदालत में आवेदन देकर जेल अधीक्षक की शिकायत की थी। बीते साल 11 मई को मनरेगा घोटाले में तत्कालीन खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव पूजा सिंघल गिरफ्तार हुईं थीं। उनसे पहले सात मई को उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार गिरफ्तार हुआ था। इस मामले में 19 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद पंकज मिश्रा का सहयोगी बच्चू यादव और फिर नेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश को ईडी ने अवैध खनन मामले में जेल भेजा था। कुछ दिनों के बाद दूसरे मामले में कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था।

जेल प्रशासन ईडी के राडार पर, 30 जून को पेश होंगे जेलर व सुपरिटेंडेंट

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 30 जून को पूछताछ करेगी। ईडी के द्वारा मंगलवार को दोनों को नए सिरे से समन जारी कर 30 जून को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। ईडी जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर से जानना चाहेगी कि आखिर उन्होंने कौन से जेल मैनुअल और नियम के तहत जेल में बंद एक कैदी निलंबित आइएएस छवि रंजन की दूसरे कैदी प्रेम प्रकाश से मुलाकात कराई थी। ईडी उनसे पूर्व में मांगे गए सीसीटीवी फुटेज अब तक उपलब्ध नहीं कराए जाने का कारण भी जानना चाहेगी। कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल अधीक्षक ने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं उपलब्ध कराया, इससे संबंधित कई सवालों की सूची ईडी ने तैयार कर रखी है।

तबरेज मॉब लिंचिंग में दस दोषी करार

सरायकेला कोर्ट पांच जुलाई को सुनाएगी सजा

PHOTON NEWS SARAIKELA : सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में वर्ष 2018 को हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में मंगलवार 27 जून, 2023 को कोर्ट का फैसला आया है। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने पांच धाराओं में 10 लोगों को दोषी करार दिया, वहीं दो आरोपी सुमंत प्रधान और सत्यनारायण नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषियों को सजा का ऐलान पांच जुलाई को होगा। सरायकेला कोर्ट ने जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया है उसमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामु नायक, प्रेमचंद महाली, सुनामो प्रधान और भीमसेन मंडल शामिल हैं। इस मामले में तबरेज अंसारी की पत्नी शाहिस्ता परवीन ने पप्पू मंडल सहित 100 लोगों के खिलाफ सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि जमशेदपुर से खरसावां आने के क्रम में धातकीडीह गांव में रोक कर तबरेज अंसारी को बिजली के खंभा में बांध कर पीटाई किया गया।

ये लोग निकले दोषी

सरायकेला कोर्ट ने जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया है उसमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामु नायक, प्रेमचंद महाली, सुनामो प्रधान और भीमसेन मंडल शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला

सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में 18 जून, 2019 को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा की गई थी, जिसके बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था और वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जिसके बाद सरायकेला मंडल कारा में 22 जून को उसकी तबीयत बिगड़ गयी, जिस पर सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। मौत के बाद इस मामले में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर सरायकेला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है। 18 जून, 2019 को सरायकेला थाना के धातकीडीह गांव में बिजली खंभा से बांध कर तबरेज अंसारी के साथ मारपीट करने एवं धार्मिक नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था।

सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने किया सरेंडर, भेजे गए जेल

RANCHI : सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। सरेंडर करने के साथ ही उन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की है। उन्होंने साल 2022 में विधानसभा घेराव मामले में सरेंडर किया। विधानसभा घेराव के दौरान उन पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने विधानसभा घेराव मामले के साथ-साथ एक अन्य मामले में सरेंडर किया है। सिविल कोर्ट की ओर से इस मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गयी थी। जिस वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गयी थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने दो साल की सजा को घटा कर एक साल कर दिया था। वर्ष 2022 में अमित महतो ने विधानसभा घेराव कार्यक्रम में भाग लिया था। इस मामले को लेकर अमित महतो सहित अन्य के खिलाफ धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अमित महतो ने इस मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

तीन तलाक का इस्लाम से कोई संबंध नहीं : PM

UCC के नाम पर हो रहा भड़काने का काम

AGENCY BHOPAL : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीन तलाक का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। 'जो भी तीन तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये वोटबैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तीन तलाक से नुकसान का दायरा बड़ा है। बहुत अरमानों से पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजता है। जब 8-10 साल बाद बेटी वापस आती है, तो उसका भाई, पिता सब बेटी की चिंता में दुखी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार को भोपाल में मेरा बूथ-सबसे मजबूत' में पार्टी कार्यकताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तीन तलाक का इस्लाम से संबंध होता, तो दुनिया के मुस्लिम बहुल देश इसे खत्म नहीं करते। मिस्र में 90 फीसदी से ज्यादा सुन्नी मुस्लिम हैं। आज से 80-90 साल पहले वहां तीन तलाक की प्रथा समाप्त हो चुकी है। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है, तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश में क्यों नहीं है। मुस्लिम बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। इसीलिए मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां भाजपा और मोदी के साथ खड़ी हैं।' प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश की भाजपा कार्यकर्ता रानी चौरसिया ने सवाल पूछा कि तीन तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम भाई-बहनों का भ्रम कैसे दूर करें? इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ।' दमोह के श्रीराम पटेल ने पूछा कि आपने खुद मंडल स्तर तक कार्यकर्ता बनकर काम किया। ऐसे में आप राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक कार्य को कैसे देखते हैं?

कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ● एजेंसी

मानगो RAPE CASE में सरकार से मांगा जवाब

मंत्री के भाई समेत डीएसपी व थानेदार को आरोपी बनाए जाने का मामला

SPECIAL REPORTER RANCHI : जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी और थानेदार समेत 22 लोगों को आरोपी बनाए जाने को लेकर जमशेदपुर की निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट ने

राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने जमशेदपुर की निचली अदालत में मामले में चल रही कार्यवाही (ट्रायल) पर रोक बरकरार रखी है। प्रार्थी की ओर से ए के कश्यप ने पैरवी की। मामला 19 जनवरी 2018 का है जहां पीड़िता ने अदालत में बयान दर्ज कराया था। उसके साथ दो दर्जन लोगों ने दुष्कर्म किया है। आरोप के बाद डीएसपी और थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया था लेकिन पुलिस की जांच में दोनों अफसरों को क्लीन चिट दे दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीआईडी जांच का भी आदेश दिया था लेकिन सीआईडी ने भी इनको क्लीन चिट दे दिया था।

पीड़िता की मां ने दाखिल की थी अर्जी

दरअसल, पीड़िता की मां ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी समेत 22 लोगों को आरोपी बनाने के लिए जमशेदपुर की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी। ये अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली और सभी 22 लोगों को मामले में आरोपी बनाने और ट्रायल चलाने का आदेश दिया है।

सीएम आज 500 युवक-युवतियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को कल्याण विभाग, झारखंड सरकार की विशेष प्रयोजन वाहिनी के रूप में कार्य कर रही प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित नर्सिंग/आईटीआई कौशल कॉलेज के युवक-युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अनुसूचित जनजाति मंत्री चंपई सोरेन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस अवसर पर नर्सिंग /आईटीआई कौशल कॉलेज एवं कल्याण गुरुकुल के 500 युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा।

झारखंड में मानसून की बौछार से मौसम सुहाना

राज्य में कम से कम दो दिन और होगी बारिश

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड के अधिकतर हिस्सों में रविवार से ही मध्यम से हल्की बारिश हो रही है। इसकी वजह से बारिश की कमी अब घटकर 64 प्रतिशत रह गयी है। एक मौसम वैज्ञानिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने 19 जून को झारखंड में दस्तक दी थी। उस समय बारिश की कमी 87 प्रतिशत थी। मगर दो दिनों से पड़ रही बौछारों की वजह से बारिश की कमी में आठ प्रतिशत तक की भरपायी हुई है। अधिकारी ने बताया कि राज्य में कम से कम और दो दिन तक बारिश होने की संभावना है। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में एक से 26 जून के बीच 54.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 149.8 मिमी है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा, उत्तर आंतरिक ओडिशा और उससे जुड़े दक्षिण झारखंड के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है जिसकी वजह से रविवार से अच्छी बारिश हो रही है। बारिश का दौर अगले दो दिन तक जारी रह सकता है।

असम में बाढ़ से 1.55 लाख लोग प्रभावित

GUWAHATI : असम में बाढ़ की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। अभी भी राज्य के 11 जिलों के 1 लाख 55 हजार 896 से अधिक नागरिक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। बाढ़ के चलते कई नदियों के तटबंध टूट गए और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सोमवार की देर शाम तक के बाढ़ प्रभावित जिलों के आंकड़े जारी किए हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जिलों में बजाली, बाक्सा, बरपेटा, दरंग, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, कामरूप (ग्रामीण), लखीमपुर, नगांव, नलबाड़ी और तामुलपुर शामिल हैं। बाढ़ से 23 राजस्व सर्किल अंतर्गत 563 गांवों के 1 लाख 55 हजार 896 लोग प्रभावित हुए हैं।

अंतिम पड़ाव पर हज यात्रा, कम नहीं हो रहीं यात्रियों की परेशानियां, समस्याओं से होना पड़ रहा दो-चार

मीना और अराफात में कई चुनौतियों से जूझ रहे हज यात्री

AGENCY NEW DELHI : हज यात्रा-2023 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस दौरान भारत से हज पर जाने वाले लोगों की अब तक मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हज के अंतिम चरण के दौरान मीना और अराफात में खाने-पीने से लेकर बुनियादी सुविधाओं के अभाव का भी उनको सामना करना पड़ा है। हाजियों ने वहां भारतीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की और विरोध भी जताया है। हज यात्रा के शुरू में ही सऊदी अरब के दो शहरों मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ में भारतीय हज यात्रियों को ठहराने के लिए जिन भवनों का चयन किया गया था, वह काफी दयनीय स्थिति में है। साफ-सफाई की कमी थी। इसके अलावा भी कई तरह की अव्यवस्थाओं की शिकायत हज यात्रियों ने की थी। हज के अंतिम पड़ाव में अब मीना और अराफात में यात्रियों को खाने-पीने, एयर कंडीशन की खराबी, टॉयलेट ब्लॉक की कमी का सामना करना पड़ रहा है। खेमों की कमी की वजह से लोगों को चिलचिलाती धूप में रहने पर मजबूर होना पड़ा है। अव्यवस्थाओं की शिकायत के बावजूद इसका समाधान नहीं निकाला जा रहा है। मीना और मक्का में हज कमेटी के दफ्तर का हज यात्रियों के जरिए घेराव किए जाने की खबरें भी सामने आई हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने पंजाब के हज यात्रियों को होने वाली परेशानियों का मामला उठाया था।

लगभग 26 लाख हज यात्री पहुंचे हैं सऊदी अरब

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस वर्ष दुनियाभर से लगभग 26 लाख हज यात्रियों के पवित्र काबा शरीफ का हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंचने की खबर है। इसमें से एक लाख 39 हजार हज यात्री हज कमेटी आफ इंडिया के माध्यम से और 40 हजार पीटीए के माध्यम से भारत से हज यात्रा पर गए हैं। यात्रा के दौरान हज यात्रियों के जरिए वीडियो कॉल और वीडियो मैसेजिंग के जरिए अपने रिश्तेदारों को तमाम तरह की परेशानियों का उल्लेख करने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रिश्तेदारों द्वारा राज्य हज कमेटियों के जरिए केंद्रीय हज कमेटी को ईमेल और टेलिफोन, व्हाट्सएप के जरिए लिखित शिकायतें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है।

VANDE BHARAT EXPRESS पहुंची बरकाकाना, भव्य स्वागत के साथ पटना रवाना

PHOTON NEWS RAMGARH :
रांची पटना के लिए रांची से चलकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को बरकाकाना जंक्शन पहुंची। जहां लोगो ने हर्षोल्लास के साथ ट्रेन का स्वागत बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए किया।

झारखंड-बिहार के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का कॉमर्शियल परिचालन का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर की। इसके साथ ही रांची से पटना के लिए वंदे भारत एक्प्रेस अपने पहले सफर के लिए बरकाकाना जांक्सन पहुंची। ट्रेन 12:30 बजे बरकाकाकना पहुंची और 12:45 के करीब हजारीबाग के लिए रवाना हुई।

वंदे भारत ट्रेन के आते ही उमड़ी भीड़। ● द फोटोन न्यूज

इस मौके पर गिरीडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी व रेल अधिकारियों ने हरी झंडी दिखा रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजनैतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता, रेलवे स्टाफ और आम लोग मौजूद रहे। ट्रेन आगमन को लेकर स्टेशन परिसर में सास्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे स्कूली बच्चियों ने भाग लिया।

इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरपीएफ के जवान मुस्तैद रहे। ट्रेन का आगमन पर बैंड बाजे के साथ स्वागत करते हुए विधिवत पूजा अर्चना कर ट्रेन को रवाना किया गया। मौके पर गिरीडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी, भाजपा सांसद प्रतिनिधि रणंजय कुमार उर्फ कुंटु बाबू, नारायण चंद भौमिक, सुमन सिंह, योगेश दांगी, जगतार सिंह, वरूण सिंह, हरि रत्नम, हरेश राय, सहित दर्जनों लोग मौजूद थें।

बकरीद के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए डीसी की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन

PHOTON NEWS RAMGARH :
आगामी बकरीद पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर मंगलवार को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान सर्वप्रथम उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडे ने सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर की गई तैयारियों की जानकारी ली जिसके उपरांत उन्होंने सभी को पर्व के दौरान सतर्क रहकर अपने अपने क्षेत्रों में हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। मौके पर उन्होंने पीसीआर एवं पैंथर की टीम को संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं किसी भी प्रकार की अफवाह सामने आने पर

बैठक करती उपायुक्त एव उपस्थित अन्य अधिकारी। ● द फोटोन न्यूज

त्वरित इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को देने एवं अफवाहों को दूर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को पूरे पर्व के दौरान अलर्ट मोड पर रहकर कार्य करने का निर्देश दिया।

पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक में असामाजिक तत्वों पर विशेष ध्यान रखने एवं आवश्यकता अनुसार धारा 107 110 एवं 116 की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाहों के फैलने के मद्देनजर उपायुक्त ने अधिकारियों को सोशल मीडिया एवं विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखने का निर्देश दिया वहीं किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर संप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा आपत्तिजनक पोस्ट करने/शेयर करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने वैसे क्षेत्रों जहां अब तक शांति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है उनमें जल्द से जल्द शांति समिति की बैठक आयोजित कर सदस्यों के माध्यम से पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए वहीं उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला स्तरीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित अन्य उपस्थित थे।

कुष्ठ रोग खोजी अभियान के तहत केंद्र स्तरीय टीम ने किया रामगढ़ जिले का दौरा

PHOTON NEWS RAMGARH :
केंद्र स्तरीय टीम ने 15 से 28 जून 2023 तक चलाए जा रहे कुष्ठ रोग खोजी अभियान के तहत रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान डॉ सांता रमन एवं डॉ गौतम की अध्यक्षता में गठित टीम ने सर्वप्रथम गोला प्रखंड के मगनपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अब तक हुए सर्वे कार्य का जायजा लेते हुए टीम ने संदिग्ध पाए गए लोगों की सही तरीके से शारीरिक जांच करने एवं कुष्ठ रोगियों का अच्छे से उपचार करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों एवं स्लम क्षेत्र के लोगों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया वहीं उन्होंने सर्वे कार्य में लगी

जिले का दौरा करती टीम। ● द फोटोन न्यूज

सहियाओं तथा सुपरवाइजर्स को कुष्ठरोग खोजी अभियान के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी।

मौके पर जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ सविता वर्मा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ समीम, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक श्री विनय उराव, जिला काय चिकित्सक डॉक्टर सावंत कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

बोलेरो पिकअप लूट में शामिल गढ़वा के दो अपराधी गिरफ्तार

PHOTON NEWS PALAMU :
नावा बाजार थाना क्षेत्र क्षेत्र के बिश्रामपुर से इटको को जाने वाली सड़क में एक होटल के पास पांच अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर बोलेरो पिकअप (संख्या जेएच14जी 4564) लूट लेने की घटना में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीन की तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। गत 24 जून की रात में 11 बजे वाहन को लूटने के साथ ही अपराधियों ने ड्राइवर का मोबाइल एवं 3500 नगद भी लूट लिया था। इस संबंध में पिकअप ड्राइवर आशीष राम रेहला निवासी द्वारा नावा बाजार थाना में मामला दर्ज कराया गया था।

मंगलवार को विश्रामपुर के एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने नावाबाजार थाना में बताया कि घटना के बाद कांड के अनुसंधान के लिए एसपी के निदेर्शानुसार टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए रिंग रोड गोल चक्कर नियर सदाबहार नर्सरी थाना ओरमांझी रांची के पास से लूटी गई पिकअप बरामद की तथा दो अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के असरली दक्षिणी चरवाडीह निवासी अनुज सिंह उर्फ छोटू सिंह (27) तथा मझिआंव थाना क्षेत्र के आमर निवासी रामनाथ पांडे के (4)5 पुत्र विपिन पांडे के रूप में हुई है। तीन अन्य आरोपियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिल गई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है। इस कार्रवाई में नावा बाजार के थाना प्रभारी दीपक कुमार दास, पुलिस अवर निरीक्षक नंद किशोर दास एवं जवान शामिल थे।

कुंटू बाबू ने किया महाजनसंपर्क अभियान संपर्क से समर्थन, प्रबुद्धजनों को अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित

PHOTON NEWS RAMGARH :
मंगलवार को भाजपा का देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह पूर्व रामगढ़ विधानसभा प्रत्यासी रणंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू ने संपर्क से समर्थन के तहत प्रसिद्ध व्यवसाई, प्रबुद्धजनों एवं कई गणमान्य व्यक्तियों को अंगवस्त्र व पत्रक देकर उन्हें सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की मजबूत और ईमानदार सरकार को अपना समर्थन देने हेतु आभार व्यक्त किया।

थाना चौक से शुरू हुए इस अभियान में भारी संख्या में उपस्थित भाजपा आईटी सेल प्रभारी धीरज साहू,ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मुन्ना

प्रबुद्धजनों को अंगवस्त्र व पत्रक देकर सम्मानित करते कुंटू बाबु। ● द फोटोन न्यूज

खटीक सहित दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहें जिन्होंने उपस्थित लोगों के फोन से 9090902024 पर मिस कॉल करवाकर उनका समर्थन भाजपा के पक्ष में करवाया।

इस अवसर पर कुंटू बाबू ने कहा की भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और लोक कल्याण भरे नौ वर्ष पूरे होने पर हम उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहें है। साथ हीं उन सभी नागरिकों का अभिनंदन भी कर रहें है जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट भाजपा को देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार के हाथों को मजबूत किया। क्योंकि आज उन्ही के समर्थन की बदौलत आज देश के बहुसंख्यक आबादी के अराध्य श्रीरामजी का भव्य मंदिर अयोध्या में बना, धारा 370 हटा, देश की सीमाएं मजबूत हुई, गरीबों को कोरोना काल में दो वर्ष तक बिल्कुल मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया, फ्री गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली, मुफ्त आवास, मुफ्त शौचालय, ग्रामीण सड़क योजना, पांच लाख का इलाज प्रतिवर्ष जैसी योजनाओं से गरीब नागरिकों को लाभ मिला।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व नगर अध्यक्ष राजीव पामदत्त, मंत्री अजीत गुप्ता, किसान मोर्चा नगर अध्यक्ष सत्यजीत सिंह, श्रवण कुशवाहा, मणिशंकर ठाकुर इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य समृद्धि वाहन परियोजना के तहत शिविर का आयोजन

PHOTON NEWS RAMGARH :
रामगढ़ जिला अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के कुपोषित बच्चों के पोषण स्थिति में सुधार के मद्देनजर जिला प्रशासन रामगढ़ की पहल के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य समृद्धि वाहन परियोजना के तहत मंगलवार को ब्लॉक मोड़ पतरातू के समीप स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में शिविर के सातवें दिन आसपास के क्षेत्रों के चिन्हित सभी 33 कुपोषित बच्चों एवं

महिला की स्वास्थ्य जांच करते डॉक्टर। ● द फोटोन न्यूज

मंगलवार को चिन्हित 6 नए कुपोषित बच्चों कुल 39 बच्चों को तीन समय का पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया वही 15 ग्रामीणों को टेलीमेडिसिन सेवा भी उपलब्ध कराई गई।

स्वास्थ्य समृद्धि वाहन परियोजना को और भी प्रभावी बनाने एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के मद्देनजर टीम के द्वारा आसपास के कुल 8 घरों का भ्रमण कर लोगों को चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया गया साथ ही उन्हें टेलीमेडिसिन सहित सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई।

सामाजिक कुरीति निवारण योजना अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

PHOTON NEWS RAMGARH :
सामाजिक कुरीति निवारण योजना के तहत मंगलवार को रामगढ़ जिला अंतर्गत दुलमी प्रखंड के पंचायत भवन, ईचातु में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में उपस्थित ग्रामीणों व अन्य को सामाजिक कुरीतियों जैसे डायन प्रथा एवं इसके रोकथाम हेतु डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के क्रम में उन्हें जागरूक किया गया वही कार्यशाला के दौरान ग्रामीणों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बच्चियों को मिलने वाले लाभ, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी देने के क्रम में ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया है।

एला एंग्लाइज विद्यालय में चार दिवसीय गायन व चित्रकारी प्रतियोगिता का शुभारंभ

जन गण मन व तेरी मिट्टी गीत ने सभी का मन मोह लिया

PHOTON NEWS RAMGARH :
बिरसा चौक भुरकुंडा स्थित एला एंग्लाइज सीनियर सेकंडरी विद्यालय में चार दिवसीय गायन व चित्रकारी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन केजी की प्रधानाध्यापिका अंजू पटेल ने दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में विद्यालय के प्रत्येक कक्षाओं से इच्छुक विद्यार्थियों ने गायन में एक से बढ़कर एक देश भक्ति

प्रतियोगिता में गायन करती छात्रा । ● द फोटोन न्यूज

और हिंदी गानों की प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडली में बतौर जूरी सदस्य के तौर पर कला व सामाजिक विज्ञान के शिक्षक सिद्धार्थ कुमार और मोहनलाल बेदीया उपस्थित रहे। विद्यालय के संगीत शिक्षक सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि विद्यालय में कला एवं गायन की प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है तथा बच्चों के गायन कला को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय उन्हें मंच प्रदान करता है। साथ ही साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को विद्यालय प्रबंधन के द्वारा रिजल्ट डे के दिन सम्मानित भी किया जाता है। इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों के बीच में कला के साथ-साथ अन्य कौशल प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वही बच्चों द्वारा जन गण मन व तेरी मिट्टी गीत को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी गई। जिससे उपस्थित सभी लोगों का मन जीत लिया। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों में अनमोल मुंडा, शैलेश सोनी, नूर, कृति, प्रीति कुमारी, कृष कुमार, अर्पिता यादव, निक्की चौहान, अनुष्का शर्मा, समीर टूटू, ओम प्रकाश माली, स्वीटी कुमारी, आराध्या कुमारी, लक्ष्मी, मानसी कुमारी, रिया, सालवी तिवारी, अंश, आरव सेठ, हर्ष कुमार गुप्ता, सौरभ प्रजापति, अंशु कुमार, स्वाति कुमारी, शिवानी कुमारी, नमन सोनी, कुंदन कुमार, अनमिता कुमारी, श्वेता कुमारी और सुहानी यादव उपस्थित थीं।

BRIEF NEWS

उपायुक्त के निर्देश पर किया जा रहा दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन

RAMGARH : रामगढ़ जिला अंतर्गत सभी दिव्यांग जनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के उद्देश्य से उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा के निर्देश पर सिविल सर्जन रामगढ़ द्वारा रोस्टर तैयार कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविरों का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में निम्न तिथि व स्थान पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। 28 जून 2023- अति० प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चितरपुर, पूर्वाहकिन 11:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक। 30 जून 2023- प्रखंड मुख्यालय दुलमी पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक।

रामगढ़ महाविद्यालय मे वरिष्ठ शिक्षकों की बैठक संपन्न वैधानिक प्रक्रिया से होगा शिक्षक संघ का पुनर्गठन

RAMGARH : रामगढ महाविद्यालय, रामगढ़ मे वरिष्ठ शिक्षकों की एक अहम बैठक डॉ रणविजय सिंह देव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के शिक्षक संघ का पुनर्गठन एक माह के अंदर वैधानिक तरीके से उचित प्रक्रिया के साथ किया जाएगा। उपस्थित शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि क्योंकि कार्यकारिणी की अवधि पूरी हो गई है अतः पुनर्गठन होना ही चाहिए लेकिन जिस तरीके से कल चुनाव कराया गया है वह असंवैधानिक है उचित प्रक्रिया नहीं अपनाया गया है वर्तमान कार्यकारिणी को भंग किए बगैर नई कार्यकारिणी का चयन कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। आज की बैठक में डॉ रणविजय सिंह देव, डॉ रत्ना पांडेय, डॉ सुनील कुमार अग्रवाल, डॉ राजेश कुमार उपाध्याय, डॉ सतीश सिंह, डॉ सतीश कुमार, डॉ के सी दुबे, डॉ सरिता सिंह डॉ सी टी एन सिंह आदि उपस्थित थे।

महादेव मंडा गोला में एल ई डी के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन

RAMGARH : गोला मंडल में मंडल अध्यक्ष बबलू साव के नेतृत्व में महादेव मंडा गोला में एल ई डी के माध्यम से मेरा बुथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भोपाल में हर प्रदेश से कार्यक्रताओं के साथ सिधा संवाद किए ओर अपने अपने बुथ की जानकारी ली सभी को कहा की बुथ में हर रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम करना चाहिए केन्द्र की जानकारी लोगों को देना है मोदी जी के कार्यकाल का शानदार 9,साल होने पर लोगों के बिच जाए और मिश कोल के माध्यम से लोगों को जोडे डोर टु डोर सम्पर्क करें भाजपा के कार्यकर्ता हर रोज लोगों का सेवा करते हैं चाहे धुप हो ठंड हो बरसात हो लोगों के लिए ओर संगठन के लिए काम करते रहते हैं कार्यकर्ता के ही बदोलत आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनीं है फिर एक बार जनता के आशिर्वाद से भाजपा की सरकार बनेगी केन्द्र और राज्य में इसमें मुख्य रूप से शामिल हुए इस कार्यक्रम के प्रभारी चन्द्र शैखर चोधरी महामंत्री जितेंद्र साहु सांसद प्रतिनिधि बिजय ओझा पंचम चोधरी संतोष कुशवाहा बिकास मणि पाठक प्रमोद रंजन सुरज प्रसाद शिव मंगल प्रसाद जितेंद्र कुशवाहा सुमन दांगी अनील कुमार दुलाल मिश्रा मोहन डे निरंजन तिवारी मुंशी महतो कानतेशवर प्रसाद आदि शामिल हुए।

सीनियर ब्लैक बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट में कंचन दास को मिला तृतीय डॉन का प्रमाण पत्र

RAMGARH : मार्शल आर्टस सितोरियो कराटे डु फेडरेशन ऑफ झारखंड का चल रहे पांच दिवसीय सिनियर व जुनियर ग्रेडिंग टेस्ट मे कराटेकार सेंसाई कंचन दास को तृतीय डॉन का प्रमाण पत्र मिला। मार्शल आर्टस फेडरेशन के मुख्य प्रशिक्षक सिहोन जीबी थापा ने सीनियर ग्रुप में कंचन दास को तृतीय डॉन का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सिहोन जीबी थापा ने कहा कि कंचन दास ने नेपाल में हुये अंर्तराष्टीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। इन्होने गरीब बच्चो को कराटे, योग, खेलकुद का प्रशिक्षण देने का काम किया है। साथ ही खासकर लड़कियों को आत्मरक्षा के लिये मार्शल आर्ट के गुर सिखाने का काम भी किया है। उन्होंने कहा की इनके द्वारा प्रशिक्षित कराटेकारो ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल भी जीत चुके हैं। ग्रेडेशन टेस्ट शिविर में रांची, रामगढ, बडकागांव, बेरमो, फुसरो, चतरा के दर्जनो कराटेकारो ने हिस्सा लिया।

ओपी जिंदल स्कूल में मना अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस

RAMGARH : जेएसपी कैंपस स्थित ओपी जिंदल स्कूल पतरातू में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया गया। विद्यालय में प्रातःकालीन वंदना सभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे कक्षा छह से आठवीं तक के विद्यार्थियों ने झूमती दुनिया नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगो को नशा निषेध के प्रति जागरूक करने का काम किया। नाटक मंचन कर लोगो को बताने का काम किया गया कि कैसे युवा पीढ़ी को नशे की लत लगा दी जाती है और अवैध तस्करी में लिप्त कर दिया जाता है। जिससे बच्चे का भविष्य सहित परिवार तबाह हो रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य गुरुदत्त पांडेय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग समाज के साथ-साथ राष्ट्र के लिए भी खतरा है। हम अपने देश के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। युवा पीढ़ी को इस खतरे के बारे में जागरूक होना चाहिए। युवा नशे की लत से अपने आप को बचाने का काम करें। नही तो उनका भविष्य पुरी तरह बर्बाद हो जायेगा। कार्यक्रम का संचालन बीके शर्मा ने किया। मौके पर विद्यालय के छात्र छात्रायें व शिक्षक -शिक्षिकाएं मौजुद थे।

किशोरी ने फंदे से झूलकर की आत्महत्या

RAMGARH : ओपी क्षेत्र के दुंदुवा में मंगलवार की दोपहर एक किशोरी ने अपने घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार दुंदुवा निवासी महेश राम की पुत्री पूजा कुमारी और उसकी बड़ी बहन के बीच मोबाइल को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद पूजा अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर बाद भी कमरे से नहीं निकलने पर घरवालों ने दरवाजा खुलवाने का काफी प्रयास किया। कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर पूजा कुमारी का दुपट्टे के फंदे से झूलता शव पाया गया। परिजन आनन फानन में उसे सीसीएल अस्पताल ले गये। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताते चले कि घर में महेश राम, उनकी पत्नी और पूजा सहित तीन बच्चियां थीं। घरवालों के अनुसार मोबाइल को लेकर प्रायः पूजा का अपने बहनों से झगड़ा होता था। नौबत यहां तक आ जाएगी इसका अंदाज माता-पिता को नहीं था। बच्ची की मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल छानबीन चल रही है।

दुमका में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

DUMKA : महाराष्ट्र के शिरूर थाना से आई तीन दिवसीय टीम ने सोमवार की रात करीब दो बजे मसलिया के बड़ा डुमरिया गांव से साइबर ठगी के आरोपी निजाम खुर्शीद अंसारी को गिरफ्तार किया। टीम मंगलवार को अदालत में पेश करने के बाद अपने साथ लेकर चली गई। मसलिया थाना प्रभारी ईश्वर दयाल मुंडा ने बताया कि एक साल पहले निजाम ने महाराष्ट्र में साइबर ठगी की थी। दो बार नोटिस भेजने के बाद भी निजाम महाराष्ट्र में हाजिर नहीं हुआ। इस बार पुलिस वारंट लेकर आई। रात दो बजे के करीब बारिश के बीच आरोपित को उसके घर से धर दबोचा। निजाम समेत कई अन्य की तलाश में तीन सदस्यीय पुलिस 20 दिन से रेकी कर रही थी।

जनता दरबार में उपायुक्त ने कैंसर पीड़ित को ऑन द स्पॉट दिया 50 हजार का चेक

PALAMU : उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे की आम जनता के प्रति समर्पण की भावना के कारण लोगों का विश्वास जनता दरबार के प्रति बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार के आयोजित सप्ताहिक जनता दरबार में समाहरणालय परिसर में पहुंचते ही उपायुक्त की नजर एक दुखियारी महिला की गोद में लेटे उनके बीमार पति पर पड़ी तो उपायुक्त के कदम वही ठहर गए। उपायुक्त महिला के समीप जाकर जमीन पर बैठ गए और दंपत्ति से उनकी परेशानी के बारे में पूछा। महिला ने रोते हुए बताया कि उनके पति असलम अंसारी कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी माली हालत बेहद खराब है जिस कारण वह अपने पति का इलाज नहीं करवा पा रही है।

BRIEF NEWS

मारपीट में युवक घायल, एफआईआर दर्ज

RANCHI : आदर्श नगर में एक युवक के साथ मारपीट का मामला मंगलवार को प्रकाश में आया है। इस संबंध में अमर कुमार ने गोलू कुमार और उसके भाई अजय कुमार के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि अमर कुमार दूध लेने के लिए घर से गए थे। लौटने के क्रम में गोलू कुमार ने नशे में अपने दोस्तों के साथ अमर कुमार से पैसा छिनने लगे। पैसा नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की। इसी क्रम में गोलू का भाई अजय भी पहुंच गया और दोनों ने मिलकर अमर के साथ मारपीट की। साथ ही लोहे के हथियार से हाथ में मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने मंगलवार को बताया किआरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

तुपुदाना में घर से कीमती सामान ले उड़े चोर

RANCHI : रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। चोरी की लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में दहशत बना हुआ है। तुपुदाना के पॉश इलाके मानसरोवर में लगातार चोरी की घटनाओं का अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है। इस बीच चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है। रविवार की रात तुपुदाना के हुलहुंडू स्थित अमित पवन सांगा के घर में चोरों ने धावा बोला और कीमती सामान ले उड़े। तुपुदाना ओपी में अपने लिखित आवेदन में अमित पवन सांगा ने लिखा है कि रविवार की रात 9:00 बजे के लगभग सपरिवार खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले गए 4:00 बजे भोर में बहन किसी के चलने की आहट सुनकर उठी। किसी को नहीं देखकर फिर सो गई । सुबह उठकर जब घर के सामान अस्त-व्यस्त देखें तो पता चला कि घर में रात में चोरों ने घर के कीमती सामान चोरी कर लिए हैं। घर के बालकोनी के दरवाजे को खोलकर चोर घर में प्रवेश किए थे और कीमती सामान की चोरी कर ले गए।

आजसू पार्टी 30 जून को राज्य में मनाएगी हूल दिवस

RANCHI : आजसू पार्टी 30 जून को पूरे राज्य में हूल दिवस मनाएगी। इस अवसर पर हर प्रखंड एवं जिला कार्यालय तथा रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। आजसू पार्टी श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से संताल हूल के महानायक सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो सहित सभी अमर शहीदों की संघर्ष गाथा को जन-जन तक पहुंचाएगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत ने मंगलवार को कहा कि झारखंड क्रांतिकारियों की माटी है। इस वीरभूमि ने कभी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। जब-जब हमारे जल, जंगल, जमीन पर किसी ने अधिकार जमाना चाहा, तब-तब क्रांति का बिगुल फूंका गया।

झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा का धरना

RANCHI : झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने मंगलवार को रांची राजभवन के समक्ष महा धरना का आयोजन किया। महा धरना की अध्यक्षता हजारीबाग के पूर्व सांसद और भाकपा के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने किया। मेहता ने कहा कि झारखंड सरकार विस्थापन आयोग का गठन शीघ्र करें। गैरमजरूआ जमीन भूमि बैंक में डाल दिया गया, वर्तमान सरकार भी ध्यान

atomy
ATOMY
INDIA
RANCHI TEAM
WARRIOR CENTRE
4th Floor, Shop No. 22, 23, 24
Roshpa Roshpa Tower,
Main Road, Ranchi - 834001
Mob. 9334495776

झारखंड को सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई रांची-पटना VANDE BHARAT EXPRESS को हरी झंडी

PHOTON NEWS RANCHI : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस समेत पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में इन पांच वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। इनमें रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो-भोपाल-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव (गोवा)- मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस और धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। बता दें कि झारखंड-बिहार को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को रांची से पटना रवाना करने के लिए रांची स्टेशन पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मंत्री चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, रांची सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, रेलवे के डीआरएम और दक्षिण पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर अर्चना जोशी समेत कई लोग उपस्थित रहें।

मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन होगा परिचालन : बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी आ गयी, जब पीएम मोदी ने लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 02439 के रूप में किया। अब कल यानी 28 जून से गाड़ी संख्या 22349/22350 पटना-रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन किया जायेगा। यह ट्रेन पटना और रांची से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन परिचालित की जायेगी।

वंदे भारत एक्सप्रेस का अधिकतम किराया 2110 रुपये : वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से पटना के लिए वातानुकूलित चेयर कार का किराया 1175 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2110 रुपये रखा गया है। वहीं पटना से रांची के लिए वातानुकूलित चेयर कार का किराया 1025 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1930 रुपये होगा। इन ट्रेनों में कुल 8 कोच होंगे।

रांची स्टेशन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मंत्री चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माजी व अन्य।

वंदे भारत के सफर में बच्चे बने मोदी के ब्रांड एंबेसडर

देश में राजनीति को साधने का रेल एक बड़ा साधन रहा है। यह छिपी हुई बात नहीं है। आज से सिर्फ तीन दशक पीछे की बातें करें तो जार्ज फर्नांडीज, राम विलास पासवान, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव जैसे राजनीतिक शख्सियतों ने रेल मंत्री के रूप में रेल राजनीति कर गहरी छाप छोड़ने में सफल हुए। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार रेलवे की सूरत और सीरत बदलने में जुटी है। भारतीय रेलवे को वैश्विक मानक और मुकाम देने के लिए बुलेट और सेमी बुलेट ट्रेन (वंदे भारत) परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। बुलेट ट्रेनों के परिचालन में अभी वक्त लगेगा। इससे पहले सेमी हाई स्पीड वंदे भारत दौड़ाई जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से मंगलवार को रांची-पटना वंदे भारत को आनलाइन हरी झंडी दिखाई। उदघाटन सफर का स्कूली बच्चों ने आनंद उठाया। एक तरह से ये बच्चे वंदे भारत के ब्रांड एंबेसडर बन गए। वंदे भारत देशभर में लोकप्रिय हो रही है। उन्नत ट्रैक पर 160 किमी प्रति घंटे से दौड़ती है।

लव जिहाद के आरोपी तनवीर को कोर्ट ने बेल देने से किया इंकार

रांची सिविल कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जाती पुलिस ● फोटोन न्यूज

SPECIAL REPORTER RANCHI : रांची में लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर को रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी तनवीर ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है यश मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर पर एक मॉडल ने धर्म बदलने के लिए दबाव देने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपी की आज पेशी हुई और रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है । रांची पुलिस ने तनवीर को बिहार से गिरफ्तार किया था। रांची पुलिस ने मॉडल का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज और मेडिकल टेस्ट कराया था। मॉडल ने बताया, एक्टिंग और मॉडलिंग का सपना लेकर यश मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया था। सीखते- सीखते इसी जगह काम भी शुरू कर दिया। यहीं तनवीर से मुलाकात हुई। मैंने वहां डेढ़ साल काम किया इस दौरान कई तरह की मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। मॉडल ने कहा, ₹मैं किसी तरह मुंबई आ गई। इसके बाद भी तनवीर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मुझे यहां आकर मारने की भी कोशिश की है। मेरी फोटो का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वह मुझसे

निगम चुनाव केस: जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में मामले की हुई सुनवाई

तीन सप्ताह में जवाब दे सरकार नहीं तो लगाएंगे जुर्माना : HC

SPECIAL REPORTER RANCHI : हाईकोर्ट में रांची नगर निगम चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जवाब दाखिल नहीं किए जाने से राज्य सरकार पर नाराजगी जतायी। अदालत ने एक बार फिर सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि तीन हफ्ते में सरकार जवाब नहीं देती है तो जुमार्ना लगाएंगे। बता दें कि नगर निगम चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। वहीं सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बहस की। बता दें कि रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो, विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा व अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निवर्तमान पार्षदों ने अपनी याचिका में कहा है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया है। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्युनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गये हैं। जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिये गये हैं। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

बिल्डर अमित सरावगी को एक लाख के बेल बांड पर मिली अग्रिम जमानत

31 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की जालसाजी से जुड़ा है मामला

RANCHI : सीबीआइ के एक मामले में आरोपी व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल और अमित सरावगी की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने अभिषेक अग्रवाल और अमित सरावगी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है। मामले में पूर्व में कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी थी। मामले को लेकर सीबीआइ ने आरसी 1/ 2019 दर्ज किया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं ऋषभ कुमार ने पैरवी की। आरोप है कि इन दोनों के द्वारा बैंकों से कपड़ा के बिजनेस को लेकर लोन लिया गया था, लेकिन लोन की राशि को बिल्डिंग के बिजनेस के कार्य में लगा दिया गया था। इससे बैंकों को बड़ी राशि का नुकसान हुआ। ये दोनों आरोपी श्री बद्री केदार उद्योग एवं सनबीम के निदेशक पद पर थे। उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंडिया से 31 करोड़ रुपये रुपये से अधिक की राशि की जालसाजी से जुड़े मामले में ज्ञान प्रकाश सरावगी एवं अन्य के खिलाफ सीबीआइ ने तीन प्राथमिकी दर्ज की थी।

नियमितीकरण की नीति पर सही ढंग से कार्य नहीं हो रहा : हाईकोर्ट

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने मंगलवार को नियमितीकरण की मांग को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर 27 जुलाई को सुनवाई का निर्देश दिया है। अदालत ने चार इश्यू फ्रेम किए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्ष 2012 में नरेंद्र कुमार तिवारी के मामले में आए जजमेंट के बाद भी कई मामले हाईकोर्ट के समक्ष आ रहे हैं और सरकार नियमितीकरण की अपनी नीति पर सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। अब अदालत 27 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा।

जमीन विवाद में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, ग्रामीणों ने तीन घंटे तक किया सड़क जाम

अंबेडकर चौक के पास शव रख कर हंगामा करते ग्रामीण ● फोटोन न्यूज

CRIME REPORTER RANCHI : पिठोरिया थाना क्षेत्र के काटमकुली गांव निवासी अशोक साहू (42 वर्ष) पिता मोहर साहू की मौत सोमवार को इलाज के दौरान हो गई थी। 12 जून को अशोक साहू एवं उनके गोतिया के बीच जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई थी। इसमें दोनों पक्षों से कुछ लोग घायल हुए थे। इसमें अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया था। अशोक की मौत के बार नाराज ग्रामीणों और स्वजनों ने मंगलवार को तीन बजे अंबेडकर चौक के पास शव रख कर सड़क जाम कर दिया। इससे रांची- पतरातु तथा पिठौरिया-विकास मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। लगभग तीन घंटे तक ग्रामीणों ने सड़क जाम रखा तथा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। इसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ दिवाकर सी द्विवेदी, बीडीओ शीलवंत कुमार भट्ट तथा थाना प्रभारी अभय कुमार से मारपीट के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, स्वजनों को 10 लाख का मुआवजा तथा एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। पुलिस का कहना था कि इस मामले में दो आरोपी जगन साहू और सुजीत साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं मुआवजा और नौकरी के संबंध में नियम सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा सीओ तथा बीडीओ के द्वारा दिया गया।

घरवालों की डांट से बचने के लिए नाबालिग ने रच दी GANGRAPE की झूठी कहानी

CRIME REPORTER RANCHI : लालपुर इलाके में रहने वाली नाबालिग ने घरवालों की डांट से बचने के लिए गैंगरेप की झूठी कहानी रच दिया। पुलिस का कहना है कि छात्रा ट्यूशन पढ़ने के बाद अपने दोस्त के घर चली गई थी। दोस्त के घर में काफी ज्यादा समय बीत गया। छात्रा दोस्त के घर से निकली तो उसे लगा कि अब उसके घरवाले उसे फटकार लगाएंगे। इस वजह से छात्रा घर नहीं जाकर सीधा लालपुर थाना पहुंच गई। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके साथ दो लोगों ने

● छात्रा ने पुलिस को बताया था कि उसके साथ दो लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है

मिलकर गैंगरेप किया है। गैंगरेप की खबर मिलते ही पुलिस सर्तक हो गई और इसकी जांच में जुट गई। छात्रा ने पुलिस को बताया था कि वह हरिओम टावार के पास एक टुकटुक गाड़ी में बैठी थी। उस गाड़ी में एक युवक पहले से बैठा हुआ था। दोनों मिलकर छात्रा को सुनसान जगह पर लगे गए और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से टुकटुक गाड़ी चलाने वाले चालक को पकड़ा। चालक ने पूछताछ में दुष्कर्म करने की बात नहीं कही। इसके बाद छात्रा बार बार बयान बदलने लगी और दूसरे लोगों पर दुष्कर्म करने की बात कहने लगी। पुलिस ने घंटो फुटेज खंगाला लेकिन छात्रा के साथ दुष्कर्म होने की बात सामने नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से छात्रा से पूछताछ की तो उसने सच्चाई बताई कि वह घरवालों की वजह से डर गई थी

नीरज मित्तल, तारा चंद व राम प्रकाश भाटिया को रिमांड पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से लायी ईडी

ईडी की पूछताछ में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी उगल रहे राज, पाई-पाई का दे रहे हिसाब

CRIME REPORTER RANCHI : पद का दुरुपयोग कर सवा सौ करोड़ की संपत्ति अर्जित करने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के तीन सहयोगी मंगलवार से पांच दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर हैं। इन सहयोगियों में नीरज मित्तल, तारा चंद व राम प्रकाश भाटिया शामिल हैं। ईडी ने मंगलवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे तीनों आरोपियों को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रिमांड पर लिया। इनमें नीरज मित्तल को शनिवार को तथा तारा चंद व राम प्रकाश भाटिया को रविवार को जेल भेजा गया था। ईडी के अधिकारिक सूत्रों की मानें तो इनसे संबंधित इतने साक्ष्य हैं कि उन साक्ष्यों के सामने इन तीनों सहयोगियों ने घुटने टेक दिए हैं। वे काले धन की पाई-पाई का हिसाब ईडी को दे रहे हैं। तीनों ने ईडी के सामने यह स्वीकार लिया है कि वीरेंद्र राम के काले धन को सफेद करने का खेल कमीशन पर आधारित था। तारा चंद की तीन फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में नीरज मित्तल राम प्रकाश भाटिया की मदद से नकदी जमा करवाता था और उन कंपनियों के खाते से वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल के कर्मचारियों व रिश्तेदारों के खाते में रुपये स्थानांतरित होते थे। इसके बाद उन खातों से वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम के खाते में रुपये ट्रांसफर हुए, जिसके माध्यम से दिल्ली के साकेत में वीरेंद्र राम ने अपने पिता के नाम पर करोड़ों की संपत्ति खरीदी थी। ईडी की पूछताछ में आरोपियों ने काले धन को विभिन्न खातों के माध्यम से ट्रांसफर किए जाने के खेल को स्पष्ट कर दिया है। वे पूछताछ में एक-एक पाई का हिसाब दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईडी ने उनसे पूछताछ के पहले अपना होमवर्क पुख्ता कर लिया था। जब्त दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य सबकुछ स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। ईडी की जांच में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि तारा चंद की तीन फर्जी कंपनियों खाटू श्याम ट्रेडर्स, अनिल कुमार गोविंद राम ट्रेडर्स व ओम ट्रेडर्स के नाम पर खाते खोले गए थे, जिसका संचालन नीरज मित्तल करता था, जिसके बदले में वह कमीशन देता था। इन कंपनियों के खाते से अब तक 121.83

तुपुदाना में अवैध पत्थर चिप्स लदे दो हाईवा जब्त

खान निरीक्षक के आवेदन पर तुपुदाना ओपी में मामला दर्ज

CRIME REPORTER RANCHI : रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के 10 माइल चौक में जिला खनन खान निरीक्षक विश्वनाथ उरांव के द्वारा रविवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के क्रम में 10 माइल चौक में हाईवा संख्या जेएच24ई8018 एवं हाईवा संख्या जेएच09एपी6768 को रोका और हाईवा में लगे स्टोन चिप्स की जांच के क्रम में दोनों हाईवा के ड्राइवर मौके से फरार हो गए। दोनों हाईवा में पांच पांच सौ घन फिट स्टोन चिप्स लगा पाया गया। जो अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। इस संबंध में तुपुदाना ओपी में खान निरीक्षक विश्वनाथ उरांव ने लिखित आवेदन दिया है । जिसमें दोनों हाईवा के मालिक एवं ड्राइवर के विरुद्ध खान अधिनियम के तहत अवैध रूप से लघु खनिज का परिचालन करने के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय गवाहों के नहीं मिलने के कारण पीसीआर 17 के 2 जवान प्रकाश मुर्मू एवं गुरु पद् मांझी के गवाही पर मामला दर्ज करने का आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया गया है।

DDC की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : बकरीद के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सिदगोड़ा टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक मंगलवार को उप विकास आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें सिटी एसपी, के विजय शंकर, ग्रामीण एसपी मुकेश लुणायत, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा उपस्थित थे।

मौके पर एसओ जेएनएसी संजय कुमार, एसडीएम घाटशिला सत्यवीर रजक, कार्यपालक पदाधिकारी मानगो नगर निगम सुरेश यादव समेत सभी बीडीओ, सीओ, डीएसपी व थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित शांति समिति सदस्यों से पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर उनसे सुझाव लिया गया साथ ही उनकी समस्याओं को भी

शांति समिति की बैठक में शामिल जिला प्रशासन व समिति के लोग। ● द फोटोन न्यूज

सुना गया।

बैठक में जिले के वरीय पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण हेतु प्रशासन द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाये गए हैं, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सभी बीडीओ, सीओ, डीएसपी एवं थाना प्रभारियों को 247 अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया वही थानों में आयोजित शांति समिति की बैठक के फीडबैक पर भी चर्चा की गई। शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि थानावार शांति समिति की बैठक में उठाये गए मुद्दों पर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी, पुलिस पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी, साथ ही साफ-सफाई एवं अन्य बिंदुओं पर भी अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा।

सुरक्षा के मद्देनजर 92 प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की हुई नियुक्ति

बैठक के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने एवं किसी भी व्यक्ति के द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा आपत्तिजनक पोस्ट करने/शेयर करने वालों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बकरीद पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश में विधि व्यवस्था के संधारण हेतु 13 सुपर जोनल दण्डाधिकारी, 10 सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी, 33 जोनल दण्डाधिकारी तथा 36 जोनल पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजमो ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन

अपराध नहीं रुके तो होंगे आंदोलन करने को बाध्य

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था, चोरी, छिनतई एवं नशा के व्यापार की बढ़ती घटनाओं को लेकर भाजमो जमशेदपुर महानगर के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर भाजमो नेताओं ने प्रशासन से कहा कि जिले में बढ़ते अपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। प्रतिनिधिमंडल पार्टी जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसएसपी को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने बताया की विगत कई महीनों से जमशेदपुर में किसी ना किसी स्थान पर रोज चोरी एवं छिनतई की घटना दिनदहाड़े घट रही है। चोरों का गिरोह पुरे शहर में सक्रिय है। मकान मालिक के घर से जाते ही चोर बिना डर भय के घरों में घुसकर सामान साफ कर देते हैं।थाना के जीप चालक एवं सिपाही (होमगार्ड) तक की संलिप्लता की शिकायत मिलते रहती है। उनका काम कौन मकान

एसएसपी को मांगपत्र सौंपने पहुंचे भाजमो के सदस्य। ● द फोटोन न्यूज

का निर्माण कहाँ हो रहा है किसका छज्जा कहाँ बन रहा है, बस उसके वसूली में थाना प्रभारियों के शह में यह कार्य हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को बताया कि दो व्यक्तियों के झगड़ों में दोनों से एफआईआर करवाकर थानों में वसूली का काम भी किया जा रहा है। इससे लोगों में थानों पर से विश्वास उठ रहा है। गलियों, मुहल्लों में रात्रि में पेट्रोलिंग नहीं होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। पहले तो अपराध रात में होता था अब दिन के उजाले में अपराधिक घटनाएं घट रही है।

कई थानों में अधिकारी वर्षों से इसी जिले में जमे हैं। इसकी जाँच पड़तालकर इस संबंध में नियमसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। नशाखोरी से बड़ा गिरोड नशे के व्यापारियों का है। ब्राउन शुगर एवं अन्य घातक नशीले पदार्थों की सप्लाई गली-मुहल्लों तक होने से अपराध अनियत्रिंत हो रहा है। नशे के व्यापारियों पर शिकांजा कसना अति आवश्यक है। अराजकता न फैले इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों का थानों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए एवं गलत कार्यों में संलिप्त अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाई की जानी चाहिए। इन अपराधिक घटनाओं से जमशेदपुर की कानून व्यवस्था में लगातार गिरावट हो रहा है। जनता का विश्वास पुलिस पर से हट रहा है। जनता के मन में भय व्याप्त हो गया है कि अपराधिक घटनाओं के बाद वे किससे गुहार लगाए।

भारतीय जनतंत्र मोर्चा का अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु ध्यान आकृष्ट करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम जनता के प्रति जबावदेह है। भाजमो प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से कही की उपरोक्त बिंदुओ पर तत्काल कार्यवाई कर अपराध में कमी लाने की दिशा में कार्यवाई की जाए जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो सके नहीं तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को बाध्य होगी।

भाजमो प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से भाजमो जिला महामंत्री कुलविंदर सिंह पन्नु, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर राव, विधायक निजि सचिव सुधीर सिंह, व्यवसायिक प्रतिनिधि सह जिला प्रवक्ता आकाश शाह, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश प्रसाद, भागवत मुखर्जी, विनोद राय, त्रिलोचन सिंह, विनित कुमुरी सहित अन्य उपस्थित थे।

गाजे बाजे के साथ मौसीबाड़ी से घर जायेंगे भगवान जगन्नाथ

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : भगवान जगन्नाथ पूरे आठ दिन रहने के बाद बुधवार को मौसीबाडी से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र जी, और छोटी बहन शुभद्रा जी भी साथ जायेगी। भगवान के रथ सजधज कर तैयार हो गया है।भगवान 20 जून को भव्य रथ पर सवार होकर अपने भक्तों के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपने मौसी के घर गए थे। पूरे सात दिन वो मौसीबाड़ी में रहे। इससे पहले बड़ा हनुमान मंदिर मानगो, उत्कल एसोसिएशन, इस्कॉन मंदिर, बेल्डीह नागा मंदिर, खास महल जगन्नाथ मंदिर, नामदा बस्ती काली मंदिर से रथ यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई थी।

भगवान को मौसीबाडी से पुनः उनके अपने मंदिरों में विराजित किया जायेगा। सभी मौसी बाड़े से 2 से 3 बजे रथ निकलेगी। पूजा समिति के शिव प्रसाद शर्मा ने बताया कि 20 जून को मानगो बड़ा हनुमान मंदिर से भगवान रथ पर सवार होकर मानगो स्थित राजस्थान भवन स्थित मौसीबाडी आये थे। बुधवार को भगवान अपने रथ पर सवार होकर अपने स्थान मुखियाडांगा स्थित मंदिर जायेंगे। इसी प्रकार से साकची उत्कल एसोसिएशन, बेल्डीह नागा मंदिर, खास महल जगन्नाथ मंदिर, नामदा बस्ती काली मंदिर प्रांगण में बने मौसी बाडे से भगवान रथ पर सवार होकर अपने मंदिर में विराजमान होंगे।

वीके पांडियन ने की बरगढ़ में विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा

कैंसर अस्पताल का काम समय पर पूरा करने का दिया आदेश

PHOTON NEWS ROURKELA : मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सचिव वीके पांडियन ने बरगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। सचिव ने कैंसर अस्पताल की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने गंगाधर मेहर स्मारक के विकास पर भी चर्चा की। उन्होंने अट्टाबिरा ब्लॉक में सारंडा हाई स्कूल के दौरे के दौरान छात्रों से बातचीत की और ओडिशा स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन पहल के बारे में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की।

उन्होंने छात्रों को अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सचिव ने विश्वेश्वर मंदिर, मां दुर्गा मंदिर, रामचंडी मंदिर और वैष्णोदेवी मंदिर का दौरा किया और मंदिर के विकास और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए डीपीआर तैयार करने के संबंध में मंदिर समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की। बरपाली में बैठक के दौरान सीएम ने जनता से फोन पर कहा कि उनकी शिकायतें सुनने के लिए उन्होंने अपने सचिव को भेजा है। बैठकों के दौरान सचिव ने उल्लेख किया कि सीएम ने प्रशासन को नागरिकों तक पहुंचने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुनकरों से बातचीत की और उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने विभिन्न कॉलेजों के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने घोषणा की कि सीएम ने तहत 56 कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बेहतर बनाने की मंजूरी दी है।

को ऑपरेटिव कॉलेज चल रहे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का हुआ समापन

योग के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कालेज, जमशेदपुर में आयोजित योग में फैकल्टी डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम का मंगलवार को समापन हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा प्रो जयन्त शेखर मुख्य रूप से उपस्थित थे।

मौके पर प्राचार्य डॉ अमर सिंह ने कहा कि इस तरह का वृहद कार्यक्रम विश्वविद्यालय, एचआरडी एवं सभी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी के संयोग से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है महाविद्यालय को एक बेहतर ऊँचाई पर ले जाना, जिस जमशेदपुर को-ऑपरेटिव

कार्यक्रम में उपस्थित लोग। ● द फोटोन न्यूज

कॉलेज, जमशेदपुर को पूर्व की समय में पूरे बिहार-झारखण्ड में अपना एक ख्याति प्राप्त था वह बीच के समय में कहीं गुम सा होने लगा था। उनका प्रयास है कि महाविद्यालय को एक बार पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया जाय, इसमें सबों का सहयोग आवश्यक है।

वहीं कुलसचिव प्रो जयन्त शेखर ने कहा कि योग के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब भी जीवन में अत्यधिक कार्य दायित्व के बोझ के कारण मन अशान्त रहने पर योग उस विचलित मन को शान्त करता है जिसके द्वारा व्यक्ति ऊजार्वान होकर पहले से भी ज्यादा कार्य बेहतर तरीके से करता है।

इस कार्यक्रम में 54 आचार्य तैयार हो गये हैं जिनका यह दायित्व है कि इस योग से अन्य शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं को अवगत करायें ताकि वह भी अपने जीवन में इसे एक उचित स्थान दे। कार्यक्रम के दौरान डॉ नीता सिन्हा, आईक्यूएससी, को-ऑर्डिनेटर, ब्रजेश कुमार, सीनेटर, केयू, डॉ बीएन प्रसाद, डॉ दीपांजय श्रीवास्तव, डॉ बिनय कुमार गुप्ता, डॉ बिनय कुमार सिंह, डॉ भूषण कुमार सिंह, डॉ कृष्णा प्रसाद आदि उपस्थित थे।

हर्षोल्लास के साथ हुई LAXMI NARAYAN यज्ञ की पूर्णाहूति

आज महाभंडारा में शामिल होंगे हजारों भक्त

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : विश्व कल्याण व शांति के के लिए साकची स्थित शीतला मंदिर में चल रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का मंगलवार को संपत्र हो गया। इस अवसर पर यज्ञ मंडप में यज्ञ हवन की गूँज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। आचार्यों की उच्चारित वैदिक यज्ञ ध्वनि से पूरा शीतला मंदिर प्रांगण का वातावरण भक्तिमय हो गया। हवन के दौरान भक्तों द्वारा भगवान की जयघोष सभी को आकर्षित कर रहा था। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में आये भक्तों ने भगवान के यज्ञ पंडप की फेरी लगाए। सुबह से ही यज्ञ मंडप के पास भक्तों का तांता लगा हुआ

यज्ञ की पूर्णाहूति में शामिल भक्त। ● द फोटोन न्यूज

था। विशेष रूप से महिला भक्तों ने भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का भजन करती रही। यज्ञ की पूणार्हूति

यज्ञ मंडप में आवाहन एवं पूजन वाराणसी से आये आचार्य चितरंजन शास्त्री ,श्रीकांत ओझा ,उमेश शुक्ला ,चंदन शुक्ला ,लवकुश पाण्डेय ,मोहन पाण्डेय ,देश रंजन चौबे ,कृष्णा शंकर मिश्रा द्वारा किया गया। शाम में पूज्य जियर स्वामी के शिष्य संजय स्वामी द्वारा भक्तों को प्रवचन का रसपान कराया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में भक्तों ने ठाकुर जी का कथा का आनंद उठाया। स्वामी जी ने भगवान विष्णु से जुड़े कई प्रसंग सुनाए। साथ ही माता लक्ष्मी का महिमा का गुणगान किया।

यज्ञ समिति ने बताया कि 28 जून बुधवार को दोपहर 1 बजे से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित किया गया। प्रसाद के रूप में भोजपुर जिला का मशहूर हाथी कान पुडी सब्जी का वितरण होगा।शाम में भजन संध्या का आयोजन होगा। जिसमें शहर व बाहर से आये कलाकारों द्वारा भक्तिमय प्रस्तुति दी जायेगी।

जमशेदपुर : धूमधाम से मनाई गई मां विपत्तारिणी की पूजा

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : जमशेदपुर व आस पास के क्षेत्रों में मंगलवार को धूमधाम के साथ मां विपत्तारिणी पूजा मनाई गई जहां मां दुर्गा और काली के रूप में विपत्तरिणी देवी की पूजा कर सभी ने अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की. शहर स्थित विभिन्न देवी स्थलों के साथ-साथ जुगसलाई दुगार्बाड़ी में भी में हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु देवी की आराधना में लीन नजर आई. रथ पूजा संपन्न होने के बाद शनिवार और मंगलवार को मां विपत्तारिणी की पूजा अर्चना की जाती है. इस वर्ष रथ पूजा के बाद अंबुबाची की वजह से देवी स्थलों का पट बंद हो गया जिसके बाद मंगलवार को धूमधाम के साथ जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में मां विपत्तारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है. इस पूजा की एक अलग ही मान्यता है. मां दुर्गा और काली के रूप में मां बिपत्तारिणी की पूजा अर्चना कर सभी अपने अपने परिवार के सदस्यों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं.

महिला श्रद्धालु नंदिनी भवाई ने बताया कि इस पूजा में देवी को तेराह तरह के फल अर्पित किए जाते हैं साथ ही रक्षा कवच के रूप में मां को सुता चढ़ाया जाता है जहां पूजा संपन्न होने के बाद कथा सुनते साथ ही पुरोहित सुता सभी श्रद्धालुओं के हाथ में बांधते हैं और उनकी रक्षा की कामना करते हैं. इधर जुगसलाई दुर्गा बाड़ी मंदिर कमेटी के आयोजनकर्ता के अनुसार बड़ी संख्या में बंग भाषा भाषी इस पूजा को श्रद्धा भाव से संपन्न कराते हैं।

BRIEF NEWS

जुगसलाई फाटक पर फुट ओवरब्रिज बनाने व पिगमेंट गेट के समीप जल जमाव हटाने की आजसू पार्टी ने मांग की

JAMSHEDPUR : आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में रेलवे के सहायक अभियंता से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक मांग पत्र सौंपकर जुगसलाई-बागबेड़ा क्षेत्र के लोगों के पैदल आने के लिए फाटक पर फूट ओवरब्रिज बनाने तथा पिगमेंट गेट पुलिया के नीचे जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की. पुलिया के नीचे जल जमाव होने से वहां बड़े बड़े गढ्ढे हो गए है. जिससे बड़ी दुर्घटना की संभावना ज्यादा बढ़ गई है. इसी तरह स्टेशन-बमार्माइंस पुलिया पर बड़े-बड़े गढ़ों की भरमार हो गया है. जिसकी मरम्मत अति आवश्यक है. प्रतिनिधिमंडल ने उनसे संकटा सिंह पेट्रोल पंप चौक से चाईबासा बस स्टैंड तक के सड़क की जर्जर हालत की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा मरम्मत की मां की। रेलवे के अधिकारी से वार्ता के दौरान आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन को बाध्य होगी. प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से जिला सचिव अरूप मल्लिक, कीर्तिवास मंडल, जिला संगठन सचिव ललन झा, छात्रसंघ अध्यक्ष हेमंत पाठक, जुगसलाई मंडल कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण प्रसाद, उपाध्यक्ष स्वरूप मल्लिक,प्रखंड सचिव संजय करवा, प्रखंड महासचिव ललित सिंह, प्रमोद चौबे, साहेब बागती, आशुतोष मिश्रा, रजनीश सिंह,राजीव कुमार, अजय गिरी, रविकेश सिंह, रोशन मुखी, सूरज मुखी, राजकिशोर मुखी, सत्य प्रकाश पाठक, सुभाष बेसरा के साथ-साथ अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

डीबीएमएस कॉलेज के छात्रों ने शैक्षिक भ्रमण के दौरान बेकरी उद्योग के बारे में जाना

JAMSHEDPUR : आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत मंगलवार को डीबीएमएस कॉलेज के छात्रों ने बेक एंड टेक बेकरी का शैक्षणिक भ्रमण किया. छात्रों के आवागमन की व्यवस्था प्रबंधन द्वारा की गई थी. बेकरी प्रबंधन समिति की शिवगामी बालाकृष्णन ने छात्रों को पावरोटी, केक, बिस्कुट और टोस्ट के निर्माण में प्रयुक्त होनेवाली सामग्री, बनाने की विधि एवं वितरण को विस्तार से समझाया और दिखाया. छात्राओं ने बारीकी से सभी जानकारी प्राप्त की. इस दौरान छात्राओं में काफी जिज्ञासा और उत्साह देखा गया। इस संबंध में कॉलेज की सचिव श्रीप्रिया धर्मराजन ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण शक्तिशाली सकारात्मक शिक्षण उपकरण है, जो सभी विद्यार्थियों का सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास बढ़ाने में मदद करता है. छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराना है. शैक्षणिक भ्रमण का संचालन कॉलेज की उपप्राचार्या डॉ. मोनिका उप्पल ने की. इस भ्रमण में कॉलेज की शिक्षिकाएं और शिक्षक उपस्थित थे।

सांसद की पहल पर मकदुमपुर मुंशी मुहल्ला नाले का रेलवे के अधिकारी 28 को करेंगे निरीक्षण

JAMSHEDPUR : सांसद विद्युत वरण महतो की पहल पर रेलवे के अधिकारी 28 जून को मकदुमपुर मुंशी मुहल्ला स्थित बड़े नाले का निरीक्षण करेंगे. निरीक्षण के बाद उसकी सफाई तथा नियमित जल बहाल को लेकर प्राक्कलन तैयार किय जाएगा. मंगलवार को सांसद बिद्युत बरण महतो एवं अन्य भाजपाईयों ने क्षेत्रीय रेल प्रबंधक विनोद कुमार से इस संबंध में वार्ता की. जिसमें उपरोक्त सहमति बनी. सांसद ने बताया कि नाले की सफाई में अगर पैसों की अड़चन आएगी तो वे अपनी सांसद निधि से 10-15 लाख रुपया मुहैया कराएंगे. जिससे वर्षों की समस्य का समाधान हो सके तथा लोगों को घरों में पानी घुसने की समस्या से मुक्ति मिल सके. जानकारी हो कि मानसून की वर्षा के दौरान नाले का पानी उसके समीप स्थित लोगों के घरों में घुस गया. जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई.सांसद ने बताया कि भविष्य में नाले से पानी का सुचारू रूप से बहाव होता रहे. भविष्य में कभी जलजमाव ना हो, इसलिए रेलवे इंजीनियरिंग सेक्शन के वरिष्ठ अभियंता योजना बनाएंगे. जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। मखदुमपुर मुंशी मोहल्ला से गुजरने वाले इस नाले में परसुडीह ग्वालापट्टी, परसुडीह बाजार, रॉबर्टनगर, मखदुमपुर, डेमकासाईं, सोपोडेरा, शंकरपुर,चांदनी चौक आदि क्षेत्रों का प्रतिदिन नाले से बहने वाला पानी इसी नाले में आकर मिलता है.यह समस्या वर्षों पुरानी है. तकरीबन हर वर्ष बारिश के दिनों में इस बस्ती में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है. इस समस्या के समाधान के लिए सांसद ने रेलवे के अधिकारियों को स्थाई समाधान करने का निर्देश दिया है. उक्त बैठक में सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार, अभय कुमार चौबे, त्रिदेव चर्टराज, बबलू श्रीवास्तव, कमलेश श्रीवास्तव, सविता सिंह, धनेश सिंह गुड्डू, बबलू सिन्हा इत्यादि लोग मौजूद थे।

हॉकी : कर्नाटक ने जम्मू को 13-1 से महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में हराया

ROURKELA : 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का आज बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुभारंभ मंगलवार को हुआ। पहला मैच कर्नाटक बनाम जम्मू-कश्मीर के बीच हुआ। कर्नाटक बनाम जम्मू एवं कश्मीर के बीच मैच में स्कोर 13-1 रहा। कर्नाटक विजेता बना। प्रतिष्ठित डॉ. सत्यनारायण दास ने कर्नाटक के खिलाड़ी देशचम्मा पीजी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया।

प्रकृति गौ अनुसंधान केंद्र प्राइवेट लिमिटेड बना रहा जैविक खाद, पर्यावरण को होगा फायदा

ROURKELA : सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र ,एनआईटी, राउरकेला का एक स्टार्टअप ह्यप्रकृति गौअनुसंधान केंद्र प्राइवेट लिमिटेडह्न है। इसके मार्फत जैविक खाद और कीटनाशकों के उत्पादन हो रहा है। इसे एनआईटी के फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इनक्यूबेशन (एफटीबीआई) सेंटर में शुरू किया गया। स्टार्ट-अप की स्थापना नवंबर 2020 में कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोकुल मिंज द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्प के रूप में खेती और कृषि में गाय के गोबर और गोमूत्र जैसे जैविक उत्पादों के उपयोग से हरित प्रणाली अपनाना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त रासायनिक उर्वरक के उपयोग से, जल, जमीन, फसल और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को महसूस करते हुए गोकुल मिंज ने पर्यावरण-अनुकूल जैविक खाद और कीटनाशकों को अपनाया। उन्होंने और उनकी टीम ने गाय के गोबर, अन्य कार्बनिक घटकों और रॉक फॉस्फेट के विशिष्ट मिश्रण पर काम किया, जिसमें रॉक फॉस्फेट मिश्रण का केवल 8 से 10 प्रतिशत शामिल है। पौधों द्वारा 1 या अधिकतम 2 फसल में पूरी तरह उपयोग कर लिया जाता है। स्व-डिजाइन किए गए यांत्रिक उपकरण में खाद मिश्रण को आसानी से मिलाकर उपयोग के लिए दानेदार बनाया जा सकता है। मोटे तौर पर दानेदार खाद फिर एक शेपर से गुजरती है जहाँ से छोटे, सूखे और समान दाने बहार आते हैं कबिक्री के लिए पैकेजिंग के तौर पर उन्हें 'प्रकृति संजीवनी' के नाम से छोटे छोटे पैकेट में भरा जाता है क उनके पास प्रति माह 10 टन जैविक खाद का उत्पादन करने की क्षमता है। 'रक्षक' एक और जैविक कीट नियंत्रण उत्पाद है जिसे टीम द्वारा कीड़ों और कीटों को दूर रखने के लिए खेतों में अंधाधुंध उपयोग किए जाने वाले संक्षारक रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में तैयार किया गया है।

राज्यपाल ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कसा तंज

पटना:पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसा है। राज्यपाल ने कहा कि बिहार में विश्वविद्यालयों की परीक्षा समय पर होती है। ऐसा देश में कहीं नहीं होता। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सभी विश्वविद्यालयों को सेशन सुचारू करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होनें नई शिक्षा नीति की खूबियों को गिनाया।

27 विद्यार्थियों को दिया गया गोल्ड मेडल

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह मंगलवार को सुबह 11 बजे से श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में शुरू हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस समारोह में डॉ. शकुंतला राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति प्रो. राणा कृष्णपाल सिंह ने दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। सभी अतिथियों का स्वागत कुलपति प्रो. आरके सिंह ने किया। बता दें कि पीजी सत्र 2020-22 के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह में 27 विद्यार्थियों को राज्यपाल ने गोल्ड मेडल दिया। समारोह में हर विषय में पहले से लेकर 35वें स्थान पर रहे विद्यार्थियों ने भाग लिया।

मालवीय पगड़ी और पीले अंग वस्त्र में मिलेगी डिग्री

इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए निर्बंधित सभी विद्यार्थियों को ड्रेस कोड में रहना था। सभी को आवश्यक सामग्री मुहैया करा दी गई थी। इसमें छात्रों के लिए कुर्ता-पैजामा और छात्राओं के लिए सफेद सलवार और लेमन पीला कुर्ता, लेमन पीला, साड़ी जिसमें लाल बार्डर हो, साथ में लाल ब्लाउज के साथ ड्रेस निर्धारित किया गया है।

मायागंज अस्पताल में मरीजों को ठहरने में होगी आसानी

नाइट शेल्टर होम बनकर तैयार

पटना:भागलपुर का मायागंज अस्पताल अपनी लचर व्यवस्था को लेकर दशकों से चर्चा का विषय बना हुआ है। दूरदराज से मरीज का इलाज कराने आए उनके परिजनों को सबसे ज्यादा रहने की समस्या होती थी। ऐसे में अब उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगी।

दरअसल, मायागंज अस्पताल में मरीजों के परिजन को ठहरने के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। यहां सोने से लेकर स्नान करने और खाने तक की व्यवस्था की गई है। इसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे।यहां पर एक रात के लिए सिंगल बेड का चार्ज ₹50 रखा गया है। जबकि डबल बेड के लिए लोगों को महज ₹70 है। यहां मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। अगर कोई भी लोग रहने के अलावा यहां नाश्ता करेंगे तो उसके लिए उन्हें ₹30 एवं रात्रि के खाने के लिए ₹100 देने होंगे। इसको लेकर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत 5 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बने इस शेल्टर होम में मरीजों की आवश्यकता अनुसार तैयार किया गया है। यहां 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था की गई गै। साथ ही टहलने के लिए गार्डन भी उपलब्ध है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शेल्टर होम में 24 घंटे गार्ड की तैनाती होगी। जबकि कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसपर लोग बात कर अपनी समस्या से अवगत करा पाएंगे। इस नंबर की विधिवत रूप से जल्द शुरूआत कर दी जाएगी।

रोड सेफ्टी के नाम पर बस ऑडिट पर ऑडिट

मुजफ्फरपुर : राज्य की नेशनल हाईवे पर फरार्टा भरती गाड़ियों पर फख से अधिक अब अपनों की जान की फिक्र सताने लगी है। सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट है ही इतनी डरावनी। मुजफ्फरपुर जिले से गुजरने वाले ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के पीपराकोठी से लेकर कांटी के सदातपुर तक मई महीने में 49 एक्सिडेंट हुए इसमें 11 लोगों की जान गई। गंभीर रूप से घायल 39 लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। 23 लोग जख्मी हुए। इस सड़क पर सर्वाधिक दुर्घटना स्थल वाले 9 ब्लैक स्पॉट-बरजी बाजार, काली मंदिर, पनसलवा, नरियार, बनझूला चौक, खरिका चौक, कांटी थर्मल पावर, छिन्नमस्तिका मंदिर और नेता चौक चिह्नित हैं। यहीं 49 दुर्घटनाएं हुईं। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर तो बस नजीर है। मई माह में ही मुजफ्फरपुर की अलग-अलग सड़कों पर हुई 82 दुर्घटनाओं में से 38 एक्सीडेंट एनएच-28, 57, 77 व 10 पर हुए। 86 लोगों में से 45 लोगों की मौत वहीं हुई जिसे एनएच ब्लैक स्पॉट मानता है। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर 16 स्थलों के साथ-साथ अन्य एनएच के 60 दुर्घटना संभावित स्थलों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित कर दुर्घटना रोकने की सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है। परिवहन विभाग की रिपोर्ट कहती है 33% ब्लैक स्पॉट की सुधार प्रक्रिया अधूरी है।

वपति ने कंपनी के मैनेजर पर लगाया हत्या का आरोप

भागलपुर :भागलपुर में एक विवाहिता की मौत हो गई। महिला जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित अमित ऑटोमोबाइल में कार्यरत थी। डॉक्टर ने एक जहर खाने से मौत की पुष्टि की है। मृतिका की पहचान तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्तिथ मुंदीचक विकास कुमार की 28 वर्षीय पत्नी रूही उर्फ दीपा के रूप में हुई है।

मृतका के पति विकास कुमार ने कंपनी के मैनेजर धीरज झा पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दीपा दिसंबर महीने से ही उक्त कंपनी सेल्समैन का काम कर रही थी। वह अपने मैनेजर से काफी संपर्क में थी। उसका रूही के घर पर लगातार आना जाना था।विकास ने बताया कि रूही रोज की तरह सुबह 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकली। देर शाम ऑफिस वालों ने फोन पर उसकी तबीयत बिगड़ने की खबर दी। ऑफिस के ही किसी कर्मचारी ने उसे मनाली चौक के समीप छोड़ दिया था। जिसके बाद वह किसी तरह घर पहुंची। घर पर मौजूद बेटे ने बताया कि तबीयत बिगड़ने से पूर्व रूही को उल्टी भी हुई थी। अस्पताल पहुंचने से पूर्व रूही ने पति को बताया कि उसे जहर दिया गया है। जिसके बाद उसे आनन-फानन में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने उसके बॉडी में जहर की पुष्टि की और इलाज में जुट गई, लेकिन ज्यादा देर तक उसे जिंदा नहीं रख पाया गया और उसकी मौत हो गई।

मृतक महिला के पति विकास के मुताबिक पिछले दो-तीन दिनों से दीपा काफी डिप्रेशन में थी। उसके बेटे वेदांश ने बताया था कि मम्मी और मैनेजर अंकल के बीच कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इधर मृतिका को के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है,जबकि परिजन केस दर्ज.करने की तैयारी में हैं उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है।

बीच सड़क छेड़खानी अश्लील हरकत लोगों ने की पिटाई

बोला-500 रुपए देंगे, साथ चलो:मना करने पर फाड़े कपड़े

गया : में बीच सड़क पर नाबालिग (16) से छेड़खानी हुई। विरोध करने पर आरोपी (48) ने उसके कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। उसने कहा कि 500 रुपए दूंगा मेरे साथ चलो। मना करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी। घटना सोमवार को जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के कटारी हिल रोड पर हुई है। बताया जा रहा कि आरोपी नशे की हालत में था। उसने पहले भी लड़की के साथ छेड़खानी की थी। आरोपी की पहचान कटारी हिल के रहने वाले 48 साल के राजीव कुमार पासवान के तौर पर हुई है। वहीं, स्थानीय लोगों ने जब शख्स को नाबालिग को परेशान करते देखा तो उसे पकड़कर पीट दिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया।पीड़िता से कहा- 500 रुपए देंगे मेरे साथ चलो मामले को लेकर नाबालिग ने बताया कि जब वह काम करके घर जा रही थी। तभी बीच सड़क पर नशे में धुत एक व्यक्ति उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। वह 500 रुपया में गंदा काम करने को लेकर कहने लगा। इसका विरोध करने पर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। पीड़िता डरते सहमते अपने घर पहुंची और मां को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद मां पीड़िता को साथ लेकर आरोपी के पास गई। उसे पकड़कर पुलिस के पास ले जाने लगी। तभी मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मामला पता चलने पर लोग उसे पिटने लगे। इस दौरान किसी ने 112 पुलिस को कॉल लगाकर जानकारी दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।मां बोली- पहले भी कर चुका है अश्लील हरकत

नाबालिग की मां ने बताया कि राजीव कुमार पासवान ने मेरी बच्ची के साथ छेड़खानी की। मां ने आरोप लगाया है तीन से चार बार ऐसा किया है। मेरी बेटी से कहा कि 500 दूंगा मेरे साथ चलो। नाबालिग ने जब मना किया तो उसके साथ मारपीट की।

जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी-डंडे, हथियार से हमला

बिहार: बांका में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। घटना में सात लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल है। स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। घटना रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार की रात 9:30 बजे की है।

दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे बरसे हैं। साथ ही तेज धारदार हथियार से हमला किया गया है। एक पक्ष के सुरेंद्र साह,ललिता देवी, श्यामफूल साह और दूसरे पक्ष के शशीकांत साह, सत्येंद्र प्रसाद साह, चंद्र किशोर साह, भोला साह आपस में भिड़ गए। एक पक्ष से चार और दूसरे पक्ष से तीन लोग गंभीर रूप से घायल होकर घटनास्थल पर गिर गए।घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना की पुलिस ने सभी घायलों को आनन-फानन में रजौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉ निशांता भारती ने सभी घायलों का इलाज करने के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है।

रजौन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा आवेदन देने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी घायलों का भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है।

संक्षिप्त -समाचार

तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा विरोध में सड़क जाम

आरा-अरवल मुख्य मार्ग पर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव के समीप सोमवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार जीजा-साला को रौंद दिया। हादसे में जीजा की मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा उसका साला जख्मी हो गया। उसका इलाज उदवंतनगर पीएचसी में कराया गया। घटना के बाद लोगों के बीच अफरा-तफरी का आलम रहा। वहीं घटना के बाद चालक ट्रक छोड़ मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों आरा-अरवल मार्ग पर बेलाउर गांव के समीप शव को सड़क के बीचो-बीच रख सड़क जाम कर दिया।सड़क जाम होने के कारण वह सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही और आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। सड़क जाम की सूचना पाकर उदवंतनगर थाना इंचार्ज घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर जाम को हटवाया। इसके पश्चात पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से उक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है।

युवा के उत्थान के लिए संघर्षरत हैं

बक्सर: युवा लोक जनता दल के तत्वाधान में युवा चेतना परिचर्चा नगर के ज्योति प्रकाश चौकी स्थित सिटी पैलेस में आयोजित किया गया। परिचर्चा में युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल एवं युवा प्रदेश प्रधान महासचिव अरुण कुशवाहा उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा लोक जनता दल के अध्यक्ष कमलेश कुमार राम ने किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने कहा कि बिहार के युवा शिक्षा एवं रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को रोजगार देने का वादा किए थे। उनका वादा सिर्फ वादा बनकर रह गया। यहां के नौजवानों के हक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अनवरत संघर्ष करते रहे हैं। युवाओं के अच्छी शिक्षा मिले एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके इसके लिए युवा लोक जनता दल संघर्ष करता रहेगा। यदि मौका मिले तो बिहार के युवाओं को की समस्याओं का पार्टी प्रथम प्राथमिकता देगी। साथ ही पटेल ने युवाओं से कहां की आप हमारा साथ दें आपकी समस्याओं के लिए हम संघर्ष के रास्ते चल पड़े पड़े हैं।

युवक का देसी कट्टा के साथ फोटो वायरल

समस्तीपुर: में अवैध हथियार के साथ फोटो-वीडियो पोस्ट करना इन दिनों शौक बन गया है। पुलिसिया कार्रवाई होने के बावजूद इस तरह का वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ताजा मामला मुफस्सिल थाने के रहमतपुर वार्ड 2 का है। जहां एक युवक देसी कट्टा लेकर फोटो खिंचाता हुआ दिख रहा है।वहीं, ब्राउन कलर का लेदर का जैकेट पहन रखा है। वहीं एक 15 सेकेंड के वीडियो में युवक अपने साथियों के साथ डांस करता हुआ दिख रहा है। वायरल वीडियो में भोजपुरी गाने पर डांस करता दिख रहा है। युवक मुफस्सिल थाने के रहमत पुर गांव के मो. साहेब जान का पुत्र मो.शमशेर है। मो. शमशेर का यह फोटो व वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि इलाके में खौफ पैदा करने के लिए जानबूझ कर फोटो और वीडियो को वायरल किया गया है।बता दें कि हाल ही में जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र से कुछ युवक द्वारा हथियार के साथ वीडियो बनाकर जानबूझ कर वायरल करने का मामला सामने आया था। बाद में जब युवक को गिरफ्तार जेल ले जाया जा रहा था तो उक्त युवक द्वारा पुलिस वाहन पर हथकड़ी में वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया था।

संदिग्ध हालत में युवक का शव बरामद

बेगूसराय: में संदिग्ध हालत में युवक का शव बरामद हुआ है। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के दुलारपुर मध्य विद्यालय की है, जहां स्कूल के प्रांगण में आज सुबह के वक्त एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास सल्फास की खाली डब्बा और स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक का बोतल भी मिला है। मृतक की पहचान रिफाइनरी थाना क्षेत्र के सबोरा निवासी रामाशीष सिंह के पुत्र राजन कुमार (23) के रूप में हुई है। मृतक रिफाइनरी में सुपरवाइजर का काम करता था।

प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है मामला मृतक के भाई मौसम कुमार से मिली जानकारी के अनुसार राजन कुमार का तेघड़ा थाना क्षेत्र के ताजपुर हसनपुर के किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह लगातार उससे मोबाइल फोन पर बात भी करता था, मिलने भी आता था। मृतक युवक का लड़की से दो-तीन साल से प्रेम प्रसंग था। कॉलेज के दौरान ही दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। दरअसल, सोमवार को 4 बजे ही मृतक रिफाइनरी से निकला था।

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस परिजनों के द्वारा लगातार उसकी खोजबीन की गई। परिजन जब तेघड़ा थाना पहुंचे तो पता चला कि वहां दुलारपुर में किसी युवक का शव बरामद किया गया है। फिर मृतक के भाई ने शव की शिनाख्त राजन कुमार के रूप में की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद राजन कुमार ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या किया है या फिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि , मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।

दिल्ली की चिंता

नई दिल्ली में प्रगति मैदान सुरंग के अंदर दिनदहाडे.लूट बहुत गंभीर और दुखद है। दो मोटरसाइकिल पर आए चार बदमाशों ने व्यस्त सड़क पर बंदूक की नोक पर एक टैक्सी को रोककर लूट लिया। लगभग दो लाख रुपये की नकद राशि बड़ी आसानी से ले भागे। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी एजेंट को लूटा गया हो या दो लाख रुपये की राशि बहुत ज्यादा हो, मगर गौर करने की बात यह है कि बदमाशों ने निडर होकर कैसे खुलेआम लूट को अंजाम दिया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दिल्ली में अब लगभग चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और शहर में किसी भी तरह की गलत सक्रियता को चिह्नित किया जा सकता है। इसके बावजूद बदमाशों का दुस्साहस सोचने पर मजबूर करता है? बताया जाता है, सुरंग में 16 सुरक्षा गार्ड की तैनाती है, मगर घटना के समय वहां एक भी गार्ड नहीं था। सुरंग के अंदर सुरक्षा नहीं है, तभी तो जो बदमाश पीड़ितों का चांदनी चौक से पीछा कर रहे थे, उन्होंने सुरंग में पहुंचते ही अपराध को अंजाम दे दिया। दिल्ली में लोगों में जागरूकता भी अपेक्षाकृत कम लगती है। जैसे बताया जाता है कि लूट के इस मामले में पीड़ित ने तत्काल पुलिस को सूचित नहीं किया। ऐसा क्यों किया गया? यह उदासीनता बहुत दुखद है। दिल्ली में ही एक सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें भाग लेने वाली 80 प्रतिशत महिलाएं कभी न कभी शोषण का शिकार हुई थीं, पर उनमें से महज एक प्रतिशत ने ही शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत दिखाई थी। क्या दिल्ली में लोग अपराध से डरने लगे हैं? प्रगति मैदान सुरंग में लूट के समय भी तमाशबीन गुजर रहे थे, किसी ने शोर मचाने या अपनी ओर से शिकायत की जरूरत नहीं समझी। राष्ट्रीय राजधानी में समाज और सामाजिक संगठनों को अपराध के विरुद्ध कुछ करना होगा? यहां अपराध के आंकड़ों में जाना कतई जरूरी नहीं है, यहां दिल्ली के विशाल पुलिस बल का आकार-प्रकार देखना प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है, लोगों की सजगता, अपने शहर के बारे में लोगों के विचार की समीक्षा करना। क्या दिल्ली में रहने वाले यहां के माहौल को गर्मजोशी भरा न सही, सहज रूप से सुरक्षित और शालीन बनाने के बारे में कभी सोचते हैं? इस महानगर में रोज सैकड़ों बैठकें-सभाएं होती हैं, लेकिन क्या किसी में सुरक्षा का मुद्दा विमर्श में आता है? क्या यहां का आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर कभी मुखर होता है? बुनियादी रूप से समझ लेना चाहिए कि ऐसे अपराधों को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों और समाज पर ही है। देश की राष्ट्रीय राजधानी चोरों, लुटेरों, अपराधियों के लिए नर्क होनी चाहिए। क्या पुलिस-प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है? क्या तमाम सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे सही काम कर रहे हैं? अपराधियों के साथ परोक्ष या प्रत्यक्ष ढंग से नरमी तो नहीं बरती जा रही है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुलिस के आला अधिकारियों को युद्ध स्तर पर सुरक्षा प्रबंध करने चाहिए। जिस शहर में करोड़ों लोग रहते हों, वहां के सुरक्षा इंतजाम सैन्य स्तर के होने चाहिए। जैसे सीमा पर निगरानी होती है, वैसे ही दिल्ली में भी निगरानी तंत्र होना चाहिए।

पुरानी दोस्ती, नई जान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुचर्चित और बहुप्रचारित अमेरिका यात्रा से लगा होने की वजह से उनके मिस्र दौरे को मीडिया में भले ही उस तरह की तवज्जो न मिल पाई हो, लेकिन यह यात्रा भी खासी अहम थी। न केवल दोनों देशों के आपसी रिश्तों के लिहाज से बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के व्यापक समीकरणों के नजरिए से भी इस यात्रा के निहितार्थ गौर करने लायक हैं। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पहले इसी साल मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे। उससे पहले सितंबर में भारत के रक्षा मंत्री और फिर अक्टूबर में विदेश मंत्री मिस्र की यात्रा पर गए थे। जाहिर है, पिछली सदी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में साथ-साथ लंबी पारी खेल चुके दोनों देश नई सदी में अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देने को प्रतिबद्ध हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी का ऐतिहासिक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करना और पीएम मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान- ऑर्डर ऑफ द नाइल- प्रदान किया जाना दोनों देशों के इसी संकल्प के संकेत हैं। ऐसे संकेत और भी हैं। इसी साल सितंबर में भारत में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में मिस्र को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मिस्र ब्रिक्स का भी सदस्य बनना चाहता है और भारत इसमें भी उसका समर्थन कर रहा है। ये बातें दशार्ती हैं कि दोनों देश आने वाले दौर में आपसी सहयोग के फायदों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। भारत जहां दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और कोरोना महामारी के बाद यूक्रेन युद्ध के चलते चुनौतियों से जूझते मिस्र को सहारा दे सकता है, वहीं मिस्र भी अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन के चलते भारत के लिए कई तरह से मददगार हो सकता है। यह न केवल एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है बल्कि स्वेज नहर के जरिए पूरे एशिया को भूमध्यसागर और यूरोप से जोड़ता है। यह 11 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा अरब देश है। मुस्लिम विश्व के सबसे प्रभावशाली देशों में शुमार होता है। इस बिंदु पर यह भी याद रखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन युनियन को जी-20 में जोड़ने का प्रस्ताव किया है। यह पहल न केवल अफ्रीकी देशों के साथ भारत के भावनात्मक जुड़ाव को मजबूती देगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत के प्रभाव में भी इजाफा करेगी।

डॉक्टर्स के ब्रेन ड्रेन को नजरअंदाज मत करिए

ANALYSIS

✍ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

आज दस हजार से अधिक लोगों को प्रतिदिन सेवाएं देने वाले एम्स में ही 200 डॉक्टर्स की कमी चल रही है। यह तो एक मिसाल मात्र है। इसमें कोई दोराय नहीं कि हमारे चिकित्सकों की काबिलीयत और विशेषज्ञता के कारण ही विदेशों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं । एक मोटे अनुमान के अनुसार ओईसीडी देशों में रह रहे 75 हजार डॉक्टर्स में से करीब दो तिहाई तो अमेरिका में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह तो मानना पड़ेगा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है पर अभी बहुत कुछ किया जाना है। कोविड के दौरान तो दुनिया में श्रेष्ठतम कार्य करने के बावजूद हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलकर रह गई। दुनिया में सबसे अधिक डॉक्टर्स के ब्रेन ड्रेन वाला देश ग्रेनेडा है। यहां के दस हजार डॉक्टर विदेशों में पलायन कर चुके हैं। कोरोनाकाल में ग्रेनेडा को अपने चिकित्सकों को विदेशों से वापस बुलाने तक का निर्णय करना पड़ा। हमारे यहां कोरोना ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई जान दी है और सरकारी व गैरसरकारी प्रयासों से अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सिजन कन्सट्रेट आदि की जरूरतों को पूरा करने के समग्र और सार्थक प्रयास किए गए पर आज भी प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण इन उपकरणों का सही उपयोग नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा।

देश से डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन इस मायने में महत्वपूर्ण और गंभीर हो जाता है कि देश में चिकित्सकों की आज भी बेहद कमी का सामना करना पड़ रहा है। देश के करीब 75 हजार डॉक्टर्स ओईसीडी यानी कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन से जुड़े देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ताजातरीन उदाहरण देश के सबसे बड़े दिल्ली के एम्स का ही देखा जा सकता है, जहां पिछले दस माह में सात विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने किसी न किसी कारण से सेवाएं देना बंद कर दिया है। आज दस हजार से अधिक लोगों को प्रतिदिन सेवाएं देने वाले एम्स में ही 200 डॉक्टर्स की कमी चल रही है। यह तो एक मिसाल मात्र है। इसमें कोई दोराय नहीं कि हमारे चिकित्सकों की काबिलीयत और विशेषज्ञता के कारण ही विदेशों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं । एक मोटे अनुमान के अनुसार ओईसीडी देशों में रह रहे 75 हजार डॉक्टर्स में से करीब दो तिहाई तो अमेरिका में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह तो मानना पड़ेगा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है पर अभी बहुत कुछ किया जाना है। कोविड के दौरान तो दुनिया में श्रेष्ठतम कार्य करने के बावजूद हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलकर रह गई। दुनिया में सबसे अधिक डॉक्टर्स के ब्रेन ड्रेन वाला देश ग्रेनेडा है। यहां के दस हजार डॉक्टर विदेशों में पलायन कर चुके हैं। कोरोनाकाल में ग्रेनेडा को अपने चिकित्सकों को विदेशों से वापस बुलाने तक का निर्णय करना पड़ा। हमारे यहां कोरोना ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई जान दी है और सरकारी व गैरसरकारी प्रयासों से अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सिजन कन्सट्रेट आदि की जरूरतों को पूरा करने के समग्र और सार्थक प्रयास किए गए पर आज भी प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण इन उपकरणों का सही उपयोग नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा। यदि हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करें तो देश में शहरी क्षेत्र में तो कमी है ही पर ग्रामीण क्षेत्र के हालात अधिक ही चिंताजनक है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 की माने तो देश में ग्रामीण इलाकों की डिस्पेंसरियों में 81.6 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। और तो और सामान्य फिजिशियनों की ही बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की डिस्पेंसरियों में 79 प्रतिशत फिजिशियन की कमी है। 72 प्रतिशत से कुछ अधिक कमी प्रसूति रोग विशेषज्ञों की है। यह तो सरकारी आंकड़ों में दर्शाए गए हालात है। हालांकि नवीनतम रिपोर्ट में हालात में कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं पर अधिक सुधार की आशा करना बेमानी होगा। दरअसल हमारे यहां दस हजार की आबादी पर केवल सात डॉक्टर उपलब्ध हैं जबकि क्यूबा जैसा देश दुनिया के देशों में मेडिकल चिकित्सकीय सेवा में लीड कर रहा है और वहां दस हजार की आबादी पर 84 डॉक्टर उपलब्ध है, अमेरिका में यह संख्या 35 तो चीन में 23 है। ब्रेन ड्रेन शब्द सबसे पहली बार विश्वयुद्ध के समय उभर कर आया जब भारतीय इंजीनियर व अन्य विशेषज्ञ अपनी काबिलीयत को लोहा मनवाने विदेशों में जाने लगे और वहां अपनी पहचान बनाई। 1950 से 1960 के दशक में यूके, कनाडा और यूएसए में प्रतिभा पलायन का दौर चला और इसे ब्रिटिश रॉयल सोसायटी ने ब्रेन ड्रेन कहा तो अब विदेशों में प्रतिभा पलायन चाहे वह किसी भी देश की हो उसे ब्रेन ड्रेन के नाम से पुकारा जाने लगा है। ब्रेन ड्रेन को एक तरह से अच्छा भी माना जा सकता है क्योंकि हमारी प्रतिभा को वहां स्थान मिल रहा है पर जब तक घर के हालात तंदुरुस्त नहीं हो तब तक इसे ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। वैसे भी हमारे यहां से ही नहीं अपितु दुनिया के लगभग अधिकांश देशों से प्रतिभाएं किसी न किसी कारण से पलायन करती है। विदेशों में प्रतिभा पलायन को ही ब्रेन ड्रेन कहा जाने लगा है। हालांकि अब ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन कह कर भी पुकारा जाने लगा है तो दूसरी और रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी होने लगा है। सवाल यह है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और डॉक्टर्स की जरुरतों को देश में पूरा करना समय की मांग है। आज हम देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खासतौर से चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी निश्चित रूप से चिंता का विषय है। खासतौर से कोरोना के बाद तो सरकार को और अधिक गंभीर होने की आवश्यकता हो जाती है। दरअसल विदेश जैसी सुविधाएं हमारे डॉक्टर्स को मिलने लगें तो उनके विदेश जाने के मोह को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लाख सरकारी दावों के बावजूद अन्य देशों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी की तुलना में हमारे देश में तीन प्रतिशत से कुछ अधिक ही खर्च किया जा रहा है जबकि यूएसए में जीडीपी का स्वास्थ्य पर खर्च 18 प्रतिशत से भी अधिक है तो क्यूबा में 11 प्रतिशत, जापान में 10 से अधिक ही व्यय किया जा रहा है। दरअसल देश में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रति दस हजार की आबादी पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में लंबा समय लगेगा। हालांकि पिछले सालों में देश में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हुआ हैं। नए एम्स खोले जा रहे हैं तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल खुल रहे हैं। राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ लाई है। मोहल्ला डिस्पेंसरी खोली जा रही हैं। पर यह साफ है कि देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि सभी देशवासियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच अभी दूर की बात है। इसी साल देश में 50 नए मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय किया गया है। इन्हें मिलाकर देश में 702 मेडिकल कालेज हो गए हैं तो अब देश में मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस के अध्ययन की सीटें भी बढ़कर एक लाख 7 हजार से अधिक हो गई हैं। इसका सीधा अर्थ यह हो गया है कि कुछ साल बाद हमें एक लाख डॉक्टर्स प्रतिवर्ष मिलने लगेंगे तो विदेशों से अध्ययन कर लौटने वाले भी कुछ डॉक्टर्स होंगे। इस तरह से नए डॉक्टर्स आने लगेंगे तो हालात में सुधार होगा। सवाल अभी भी कायम है कि चिकित्सकों के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भी सरकार को ठोस प्रयास करने होंगे। डॉक्टर्स की सेवा शर्तों में सुधार के साथ ही इस क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना होगा। आज भी चिकित्सा क्षेत्र में निवेश की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वह यही है कि करीब 90 फीसदी निवेश निजी क्षेत्र में आ रहा है। लाख टके का सवाल है कि लाख सरकारी व्यवस्थाओं के बावजूद निजी चिकित्सालयों तक अधिकांश लोगों की पहुंच लगभग नहीं के बराबर ही है और आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव होगा यह लगता भी नहीं है। हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलने लगा है। देश के नामी अस्पतालों की साख व अपनी पहचान का ही कारण है कि विदेशी यहां इलाज के लिए आने लगे हैं। अब यदि विदेशों में बेहतर सुविधाओं और नाम कमाने के लिए युवा डॉक्टर्स पलायन का रास्ता अपनाते हैं तो इसे रोकने के भी प्रयास करने होंगे। कहा जा सकता है कि इतने बड़े देश से 75 हजार डॉक्टर्स ब्रेन ड्रेन पर चले भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। हालात में फिर भी सुधार होने से रहा तो यह हमारी निगेटिव सोच ही होगी। 75 हजार कोई छोटी संख्या नहीं है। इससे कुछ मायने में तो सुधार होगा ही। अन्य युवाओं को विदेश की राह अपनाने से तो हतोत्साहित किया जा सकेगा। युवा व अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों की अंतरराष्ट्रीय मंच पर मार्केटिंग की जाती है। देश में मेडिकल रिसर्च से जुड़े विश्वस्तरीय सेमिनार, वर्कशाप और इसी तरह की गतिविधियों का वार्षिक केरिकुलम बनाकर प्रचारित किया जाता है तो देश में ही सेवा दे रहे चिकित्सकों को विश्वस्तरीय पहचान बनेगी। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और विदेशों में पलायन रुकेगा। इसके साथ ही सेवा शर्तों और सुविधाओं की और भी ध्यान देना होगा। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हमारे युवा डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन रुकेगा और देश में बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे विदेशों की और रुख करने वाले डॉक्टर्स को भी देश में रह कर ही अपनी प्रतिष्ठा और पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।

लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

नई ऊंचाइयों पर भारत-अमेरिका संबंध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इस यात्रा पर पूरे विश्व की दृष्टि थी । अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का प्रत्येक क्षण भारतवासियों के लिए गर्व का क्षण था। यह यात्रा दोनों देशों के बीच मित्रता का एक नया स्वर्णिम अध्याय प्रारम्भ करने वाली रही है। इस यात्रा से जहां एक ओर भारत के शत्रु देशों चीन व पाकिस्तान को कड़ा सन्देश दिया गया है वहीं दूसरी ओर उन ताकतों को भी सन्देश दे दिया गया जो अल्पसंख्यकों के हितों, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी आदि विषयों को लेकर तथ्यहीन समाचार प्रसारित कर प्रधानमंत्री मोदी की छवि बिगाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऐतिहासिक योग सत्र का नेतृत्व करते हुए आरम्भ हुई। यहीं से अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

व भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता का आभास होने लगा। न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में मोदी के साथ योग करने के लिए वहां के लोगों का उत्साह अद्भुत था। योग कार्यक्रम में ॐ सहित संस्कृत श्लोकों का भी उद्घोष किया गया। यह भारतीय संस्कृति व योग के लिए गौरवशाली पल थे। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों का प्रतिफल है कि आज योग पूरे विश्व में छा गया है और विश्व को एक सूत्र में बांध रहा है । अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की कई महत्वपूर्ण हस्तियों से भेंट की। सबसे प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अमेरिकी संसद को सम्बोधित किया तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और उसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता की । यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोनाल्ड रीगन सेंटर में अमेरिका में बसे भारतीयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के सकारात्मक परिणाम अभी से ही सामने आने लगे हैं। यात्रा का बड़ा नतीजा यह है कि अमेरिका ने भारत की उन 100 प्राचीन मूर्तियों व धरोहरों को वापस लौटाने का निर्णय लिया है जो विगत 70 वर्षों में किसी न किसी माध्यम से अमेरिका व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचा दी गयी थीं। इसके अतिरिक्त भारत और अमेरिका के मध्य रक्षा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण को बढ़ावा देने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए समझौते हुए हैं। वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के रुख में समानता है। यह मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में बड़ा संदेश दिया। वह यह है कि भारत लोकतंत्र की जननी है तो अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैपियन। विश्व इन दो महान लोकतंत्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत होता देख रहा है। निश्चिततौर पर भारतीय- अमेरिकी समुदाय दोनों देशों के संबंध की वास्तविक क्षमता को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। यह भारत में अधिक से अधिक निवेश करने का उपयुक्त समय है। प्रधानमंत्री ने कहा हम साथ मिलकर न सिर्फ नीतियां और समझौते तैयार कर रहे हैं बल्कि हम जीव ,सपनों और नियति को भी आकार दे रहे हैं। अमेरिका में बसे भारतीयों को संबोधित करते हुए जब प्रधानमंत्री ने बताया कि अब एच- 1 बी वीजा का नवीनीकरण अमेरिका में ही हो जाएगा तो वहां पर उपस्थित जनसमुदाय प्रसन्नता से झूमा और मोदी- मोदी के गगनभेदी के नारों से गूंज उठा। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को अब अपने कार्य हेतु वीजा एच1 बी वीजा का नवीनीकरण कराने के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा और वह अमेरिका में ही अपनी नौकरी जारी रखकर यह कार्य करवा सकेंगे। इस निर्णय से अमेरिका के इंजीनियरिंग व दूसरे उच्च प्रौद्योगिकी में काम करने वाले भारतीयों को सुविधा होगी। आगे चलकर यह सुविधा एल वीजा धारकों के लिए भी हो सकेगी। नरेन्द्र मोदी अपने नौ वर्ष के कार्यकाल में दो बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का शत्रु है, इस संकट से निपटने के लिए कोई अगर- मगर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का यह संबोधन ऐतिहासिक रहा जिसको सुनने के लिए भारत ही नहीं विश्व भर के लोग जागते रहे। अपनी भाषण शैली से प्रधानमंत्री ने आतंक के पोषकों पर वार तो किया ही साथ ही जो लोग विदेशों में जाकर भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करते हैं तथा भारत के अंदर सदन की कार्यवाही को ठप करने की साजिश रचते हैं उनको कड़ा उत्तर दे दिया। अब भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों का समर्थन मजबूती से मिल सकता है। यद्यपि आतंक के खिलाफ लड़ाई में चीन अभी भी एक बड़ी बाधा बन रहा है।

Social Media Corner

सच के हक में...

कॉमन सिविल कोड का विरोध करने वालों से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश की रानी चौरसिया जी का सवाल। अगर वोटबैंक की राजनीति करने वाले मुसलमानों के हितैषी होते तो हमारे मुस्लिम भाई-बहन शिक्षा, रोजगार में पीछे न रहते और मुसीबत की जिंदगी जीने को मजबूर न होते।

(पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से)

23 नवंबर 1948 को पूरी चर्चा के बाद संविधान ने अनुच्छेद 44 को दी मंजूरी। धारा कहती है कि सरकार भारत के हर के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 जनवरी 2023 को कहा कि राज्य सरकारों को अपने यहां समान नागरिक संहिता लागू करने का हक है। संविधान पीठ ने शाह बानो प्रकरण में ही तलाक और गुजारा भत्ता जैसे महिलाओं से जुड़े मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में समान नागरिक संहिता बनाने पर सुझाव दिया था।

(पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ट्विटर अकाउंट से)

लोकतंत्र के लिए अच्छा है मजबूत विपक्ष

ऐसे वक्त में जब आम चुनाव के लिये एक साल से भी कम समय बचा है, राजग का विकल्प बनाने की कोशिशें सिरे चढ़ाने की पहल शुरू हुई है। पटना में नीतीश कुमार की पहल पर जुटे एक दर्जन से अधिक विपक्षी दलों की उपस्थिति को विपक्षी एकता की दिशा में सकारात्मक कदम ही कहा जाएगा। इस बैठक में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के साझा लक्ष्य पर विचार-मंथन हुआ। वैसे साल 2014 व 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली भाजपा को हटाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस की ताकत अभी के कुछ वर्षों में कम हुई है। हालांकि, हाल के वर्षों में पहली बार कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पटना में जुटे, लेकिन मतभेद-मनभेद दूर करने के लिये अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खासकर दिल्ली सरकार की शक्तियों पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस व आम आदमी पार्टी में मतभेद बने हुए हैं। जिसे विपक्षी एकता के प्रयासों को लेकर अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। जिसका आम जनता में अच्छा संदेश तो कदापि नहीं जाएगा। इसके साथ ही मतदाताओं में विश्वास पैदा करने के लिये कई जटिल मुद्दों को अभी सुलझाने की जरूरत होगी। बहरहाल, अभी विपक्षी एकता की कोशिशें शुरू हुई हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों को लेकर राज्यों में सामंजस्य बैठाने की जरूरत होगी। विपक्षी साझेदारी को व्यावहारिक बनाने की भी जरूरत है। इसमें दो राय नहीं कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिये मजबूत विपक्ष अपरिहार्य ही है। यदि देश में विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष के निरंकुश व्यवहार पर अंकुश लगाने की कोशिशें सिरे चढ़ सकेंगी। कह सकते हैं कि विपक्षी एकजुटता के लिये अभी कई परीक्षाएं शेष हैं। यह भी हकीकत है कि पटना बैठक में कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आए। लेकिन आगे संवाद की स्थिति बनी रहने की जरूरत पर बल दिया गया। अगली बैठक का शिमला में आयोजित किया जाना विपक्ष की एकता की इन्हीं कोशिशों का ही विस्तार है। हालांकि, पटना बैठक में केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी में सहमति नहीं बन सकी, लेकिन इससे एकता के प्रयासों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। हमें स्वीकारना होगा कि कुछ माह पूर्व तक एकता की ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही थी। साथ ही कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी तमाम विपक्षी दल सहमत नहीं थे। तब विपक्षी एकता की बजाय तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही जा रही थी। देर-सवेर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। यही वजह थी कि यह बैठक गैर कांग्रेस शासित विपक्षी राज्य में आयोजित की गई। अब इसी कड़ी में दूसरी बैठक कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल में आयोजित करने का फैसला किया गया है। निस्संदेह, इस आयोजन में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। यह आने वाला वक्त बतायेगा कि विपक्षी क्षत्रप किस सीमा तक एकता के प्रयासों में कांग्रेस की भूमिका स्वीकार करते हैं। साथ ही यह भी कि तमाम विरोधाभासों के साथ देश में सीटों के बंटवारे का कोई सर्वमान्य फामूर्ला तय हो पाता है कि नहीं। जाहिर है एकता के प्रयासों के बीच समय-समय पर कई अन्य विवादित मुद्दे सामने आएंगे। भाजपा भी अपने सारे पत्ते विपक्षी एकता के मुकाबले के लिये खेलेगी। निश्चित रूप से केंद्र सरकार में होने का अतिरिक्त लाभ भाजपा को मिलेगा। विगत में भी विपक्ष का आरोप रहा है कि केंद्र सरकारी एजेंसियों का प्रयोग विपक्ष को कमजोर करने के लिये कर रहा है। यह विपक्षी एकता के सूत्रधारों पर निर्भर करेगा कि वे आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से कितनी कुशलता से निबट पाएंगे। यह भी कि एकता के प्रयास आम चुनाव से पहले तक किस हद तक मूर्त रूप ले पाते हैं।

I WANT TO SAY...

THE PHOTON NEWS

मंगलवार का दिन रांची और झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। स्वदेशी सेमी हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रांची से पटना के लिए रवाना हुई। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया तो रांची रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल व केंद्रीय मंत्रियों सहित कई गणमान्य मौजूद थे। इस ऐतिहासिक समय का अनुभव उन स्कूली बच्चों ने भी किया जिन्हें इसके लिए चुना गया था। जब वे बड़े होंगे तो इस पल को जरूर याद रखेंगे। यह ट्रेन या इससे भी अधिक गति वाली नई सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनों का परिचालन किए जाने की योजना है। वंदे भारत तो बस इसकी शुरूआत भर है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सभी इसके लिए तैयार हों और विकसित देशों की तरह अत्याधुनिक रेल सेवा का लाभ उठाएं। गर्व कर सकें। दरअसल कुछ प्रतिशत संशय अपने ही समाज के अराजक तत्वों से है। पटना-रांची वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन में जिस तरह इस ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, वह काफी चिंताजनक और निंदनीय है। दरअसल, ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटना कोई नई नहीं है। लोग बस यूं ही, खेल-खिलवाड़ में चलती ट्रेनों पर पत्थर चला देते हैं। पत्थर चलाने के बाद यह देखकर खुश होते हैं कि पत्थर कहां लगा, क्या नुकसान हुआ। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से इस तरह की घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जाते रहे हैं। जिन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं वहां लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके बावजूद पत्थरबाजी की घटनाएं रुक नहीं रही है। यह किसी के रोकने से रुकेगी भी नहीं, जबतक लोग खुद समझदारी नहीं दिखाएंगे।

अंजुम आरा, कोषाध्यक्ष, भारत स्वावलंबन मिशन।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PRIVATE LIMITED, Kathitand, Near Tender Bagicha, P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, Jharkhand-835222, and Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001.Editor-Fahim Akhtar. E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

विश्व कप 2023 के लिए शेड्यूल का ऐलान, 5 अक्टूबर को होगा आगाज, 15 को अहमदाबाद में भारत बनाम पाकिस्तान

मुम्बई (एजेंसी)। भारत में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप 2023 के लिए शेड्यूल का ऐलान आईसीसी की ओर से कर दिया गया है। विश्व कप 5 अक्टूबर को शुरू होगा जिसमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आपस में भिड़ेंगे। मेजबान भारत अपने पहले मुकाबले में 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा जबकि पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा में कई बार देरी हुई। जबकि विश्व कप 2019 और 2015 के कार्यक्रम की घोषणा एक साल पहले ही कर दी गई थी।

टूर्नामेंट के लिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में होने वाले मैचों के साथ 10 स्थानों को अंतिम रूप दिया गया है। मेजबान भारत अपने सभी 9 मैच अलग-अलग स्थानों पर खेलेगा। हालांकि, हैदराबाद में मेन इन ब्लू के मुकाबले नहीं होंगे। चेन्नई और अहमदाबाद क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैचों की मेजबानी करेंगे। लखनऊ में गत चैंपियन इंग्लैंड भारत से भिड़ेगा वहीं, कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका और धर्मशाला में न्यूजीलैंड से भिड़ेंगा। सेमीफाइनल क्रमशः 15 और 16 नवंबर को मुंबई और कोलकाता में खेले जाएंगे। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा।

इस मेगा इवेंट में कुल 10 टीमें भाग लेंगी, पहली आठ टीमें पहले ही क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग के माध्यम से क्वालीफाई कर चुकी हैं। अंतिम दो स्थान जिम्बाब्वे में क्वालीफायर टूर्नामेंट के अंत में निर्धारित किए जाएंगे, जो 9 जुलाई को समाप्त होगा। प्रत्येक टीम राउंड रॉबिन प्रारूप में अन्य नौ से खेलेगी, जिसमें शीर्ष चार नॉकआउट चरण और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाइंग होंगे। बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला रविवार 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाला है।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हॉग ने सरफराज की उपेक्षा का कारण बताया

-शीर्ष स्तर के गेंदबाजों के सामने रहा है खराब रिकार्ड

सिडनी (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाले भारतीय टीम में बल्लेबाज सरफराज खान को शामिल नहीं किये जाने के कारणों का खुलासा किया है। हॉग ने कहा कि सरफराज को इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि शीर्ष स्तर के तेज गेंदबाजों के सामने उनका रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है। हॉग के अनुसार सरफराज को टीम में जगह नहीं मिलने का कारण उनकी खराब फिटनेस बतायी जा रही है पर वास्तविकता ये है कि वह अच्छे तेज गेंदबाजों के सामने रन नहीं बना पाते हैं। इसी कारण घरेलू क्रिकेट में शतक और काफी रन बनाने के बाद भी उनकी उपेक्षा हो रही है। वहीं युवा यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह मिल गई है,

हॉग ने हालांकि कहा कि सरफराज अगले आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन के बल पर टीम इंडिया में जगह बना लेंगे।

हॉग ने कहा, 'सरफराज रणजी ट्रॉफी में शानदार खेल दिखाते रहे हैं पर वह इसके बाद भी इस टीम में क?यों नहीं हैं। ये मैं जानता हूं कि।' वह मध्य क्रम में अपनी राज्य टीम के लिए नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करते हैं। इसी पर ध्यान देते हुए देखें तो बेहतर गुणवत्ता की तेज गेंदबाजी के खिलाफ उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं हैं। मुझे लगता है कि इसे मामले में सरफराज को लेकर भारतीय चयनकर्ता कुछ संशय में रहे हैं। यदि वह अगले आईपीएल सत्र में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं तो मुझे विश्वास है कि वे टेस्ट स्तर पर भारतीय टीम में जगह पा सकेंगे। इस पूर्व स्पिनर का यह भी मानना है कि बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को टीम में नहीं चुने जाने का कारण उनकी बल्लेबाजी नहीं बल्कि कम स्ट्राइक रेट है। हॉग ने कहा कि भारतीय टीम प्रबंधन चाहता है कि उसका शीर्ष क्रम आक्रामक अंदाज की क्रिकेट खेले और इसी कारण पुजारा को बाहर कर दिया गया।

दूसरे एशेज टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने उतरेंगी ऑस्ट्रेलिया: लाबुशेन

लंदन (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने कहा कि कहा है कि बुधवार से शुरु हो रहे दूसरे एशेज टेस्ट में उनकी टीम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। लाबुशेन के अनुसार शुरुआती मुकाबले में उनके तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को आने वाले मैचों में अपनी गेंदबाजी में सुधार कर मेजबान टीम को बड़े स्कोर बनाने से रोकना होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले टेस्ट में इंग्लैंड को दो विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनायी हुई है। टीम के कई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया पर लाबुशेन का मानना है कि तेज गेंदबाजों ने उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया।

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हमने दूसरे दर्जे का प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ियों ने असाधारण प्रदर्शन किया जिसमें से बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा भी शामिल हैं। स्पिनर नाथन लियोन ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने कहा, 'आप ने हमारे सभी तेज गेंदबाजों को पिछले चार या पांच साल से गेंदबाजी करते हुए देखा है। यह निश्चित रूप से उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी नहीं थी फिर भी हमें जीत के लिए केवल 280 रनों का लक्ष्य मिला था। ऐसे में हम अब दूसरे मैच में सुधार करने की उम्मीद कर रहे हैं। लाबुशेन ने स्वीकार किया है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उनके बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया था। उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हमें थोड़ा दबाव में डाल दिया पर कहा कि अंत में परिणाम ही अहम रहता है और उसमें हमे जीत मिली। विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर कायम लाबुशेन पहले टेस्ट में अधिक रन नहीं बना पाये। उन्होंने मैच की दोनों पारियों में कुल मिलाकर शून्य और 13 रन ही बनाये थे।

विश्वकप क्वालिफायर में नीदरलैंड से मिली हार के साथ ही वेस्टइंडीज का विश्वकप से बाहर होना तय

-पूरन का शतक बेकार गया , होल्डर ने सुपर ओवर में दिये 30 रन

हरारे (एजेंसी)। नीदरलैंड ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए दो बार की विश्वकप विजेता वेस्टइंडीज की टीम को आईसीसी विश्व कप क्वालिफायर के 18वें मुकाबले में हरा दिया।इस हार के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम का विश्वकप से बाहर होना करीब-करीब तय हो गया है। इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन के नाबाद शतक 104 रनों की सहायता से 50 ओवर में 374 रन बनाये। इस प्रकार नीदरलैंड को जीत के लिए 375 रनों का कठिन लक्ष्य दिया पर डच टीम ने तेजा निदामनुरू के 76 गेंदों पर 111 रनों की सहायता से 9 विकेट पर ही ये लक्ष्य हासिल कर सबको हैरान कर दिया। इसके बाद मैच सुपर ओवर तक गया, जहां वैन बीक ने जेसन होल्डर की गेंद पर 30 रन बनाकर मैच नीदरलैंड के कब्जे में ला दिया। वेस्टइंडीज टीम सुपर ओवर में आठ रन ही बना पायी और पांच गेंदों पर ही उसने अपने दोनों विकेट खो दिए। इसी के साथ विंडीज का इस बार एकदिवसीय विश्व कप से बाहर होना तय है।

वेस्टइंडीज टीम हालांकि किसी प्रकार सुपर-6 के लिए क्वॉलिफाई करने में तो सफल रही पर यहां वह शून्य अंक के साथ पहुंची है। उसने अपने ग्रुप से सुपर-6 में पहुंचने वाली जिम्बाब्वे या नीदरलैंड्स में किसी एक के खिलाफ भी जीत नहीं दर्ज की है। वहीं जिम्बाब्वे के 4 अंक हैं। दूसरे ग्रुप से श्रीलंका, स्कॉटलैंड और ओमान की टीमें सुपर-6 में पहुंची है।

गौरतलब है किसुपर-6 में शीर्ष-2 पर रहने वाली टीम विश्वकप के लिए क्वॉलिफाई करेगी। यदि वेस्टइंडीज अब इन तीनों को भी हरा देती है तो भी उसके 6 अंक ही होंगे। वहीं जिम्बाब्वे एक मैच जीतकर ही 6 अंकों तक पहुंच जाएगी। जिम्बाब्वे का रन रेट भी बेहतर है। इसके साथ ही श्रीलंका और स्कॉटलैंड में एक टीम 6 अंक के साथ सुपर सिक्स में पहुंचेगी। अगर जिम्बाब्वे सुपर सिक्स में दो मैच जीत जाती है तो वेस्टइंडीज विश्व कप से बाहर हो जाएगी।

भारत से पिछले 21 साल से टेस्ट सीरीज नहीं जीती है वेस्टइंडीज

जमैका । भारत और वेस्टइंडीज टीम के बीच अगले माह से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसमें भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार नजर आती है क्योंकि वेस्टइंडीज टीम भारत में पिछले 21 साल से नहीं जीती है। वेस्टइंडीज ने भारत में अंतिम बार टेस्ट मैच साल 2002 में जीता था। इसके बाद से ही वेस्टइंडीज को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। 21 साल पहले कैरेबियाई टीम ने अंतिम बार भारत को बड़े प्रारुप में हराया था। तब वेस्टइंडीज की टीम ने 2-1 से सीरीज जीती थी। इस सीरीज का आयोजन वेस्टइंडीज में ही हो रहा था। उसके बाद से ही कोई टेस्ट मैच और ना ही कोई टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज ने भारत से जीती है। साल 2002 के बाद से अब तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच कुल 8 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं और सभी सीरीज भारतीय टीम ने ही जीती है।

शुभमन , अक्षर और ईशान को कप्तान के तौर पर तैयार करें : गावस्कर

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भविष्य को देखते हुए तीन युवा खिलाड़ियों को टीम के कप्तान के तौर पर तैयार करने के लिए कहा है। गावस्कर ने कहा, भविष्य के कप्तान के तौर पर बल्लेबाज शुभमन गिल के अलावा स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल और विकेटकीपर ईशान किशन बेहतर विकल्प हैं। अक्षर हर मैच से साथ बेहतर होते जा रहे हैं, ऐसे में उन्हें उप कप्तान की जिम्?मेदारी देकर उन्हें इसके लिए तैयार करने पर विचार किया जा सकता है। इस महान बल्लेबाज ने कहा, भविष्य के कप्तान के तौर पर शुभमन और अक्षर पटेल हर मैच से साथ ही बेहतर होते जा रहे हैं, ऐसे में उन्हें उप कप्तान की जिम्मेदारी देकर उन्हें इसके लिए तैयार करने पर विचार किया जा सकता है। इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के अलावा ईशान किशन भी दौड़ में बने हुए हैं। गावस्कर ने कहा कि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान टीम में स्थान पक्का होने पर कप्तान के दावेदार बन जाएंगे। वहीं वेस्टइंडीज दौर के लिए अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को उपकप्तानी दिये जाने पर उन्होंने कहा कि अगर किसी युवा को ये जिम्मेदारी दी जाती तो और बेहतर होता क्योंकि रहाणे की उम्र बढ़ती जा रही है और ऐसे में भविष्य को देखते हुए किसी युवा खिलाड़ी को उपकप्तान बनाया जाना था।

बुमराह ने एनसीए में शुरू किया गेंदबाजी अभ्यास, वापसी की समयसीमा तय नहीं

बेंगलुरु।(एजेंसी)। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में नेट अभ्यास के दौरान सात ओवर गेंदबाजी की है लेकिन चोट से उबरकर राष्ट्रीय टीम में कब वापसी करेंगे इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। नेट पर बुमराह की गेंदबाजी को हालांकि 2023 विश्व कप की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय प्रशंसकों अच्छी खबर मान रहे है। विश्व कप का कार्यक्रम मंगलवार को मुंबई में जारी किया गया है। बुमराह की पीठ में बार-बार होने वाली तकलीफ के लिए मार्च में न्यूजीलैंड में सर्जरी हुई थी और तब से वह फिटनेस हासिल करने होने की राह पर हैं। बुमराह ने भारत के लिए अपना पिछला मुकाबला सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान खेला था।

ऐसे में सवाल उठ रहे कि क्या बुमराह आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला या एशिया कप में वापसी कर

पाएंगे? इस घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक सूत्र ने पीटीआई-को बताया, '' इस तरह की चोट के लिए, कोई समयसीमा निर्धारित करना बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि खिलाड़ी की लगातार निगरानी की आवश्यकता होती है। यह हालांकि कहा जा सकता है कि बुमराह चोट से अच्छी तरह से उबर रहे हैं। उन्होंने एनसीए नेट पर सात ओवर गेंदबाजी की है। वह अपने कार्यभार को लगातार बढ़ा रहे है जिसमें शुरुआती दौर के हल्के वर्कआउट से गेंदबाजी की ओर बढ़ना शामिल है। उन्होंने कहा, ''वह अगले महीने (एनसीए में) कुछ अभ्यास मैच खेलेंगे और तब उनकी फिटनेस का करीबी आकलन किया जाएगा।'' भारतीय टीम के पूर्व 'स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग' कोच रामजी श्रीनिवासन ने कहा कि बुमराह की वापसी में काफी सावधानी बरतनी चाहिए।

उन्होंने कहा, '' उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. एनसीए में अभ्यास मैच खेलना एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे उनके शरीर को मैच की मांग के अनुरूप तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्हें शीर्ष स्तर के क्रिकेट में लाने से पहले कुछ वास्तविक (घरेलू) मैचों में खेलना चाहिये।'' लोकेश राहुल और श्रेयस अय्यर भी एनसीए में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे है। यह दोनों खिलाड़ी भी चोट से उबरने के मामले में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। उनकी वापसी के लिए भी कोई विशेष समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। राहुल ने लंदन में जांघ की जबकि श्रेयस ने पीठ के निचले हिस्से की सर्जरी कराई थी।

मारिया को हराकर स्वियातेक बैड होम्बर्ग ओपन के दूसरे दौर में पहुंची

बैड होमबर्ग । शीर्ष रैंकिंग की खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने बैड होमबर्ग ओपन के अपने पदार्पण मुकाबले में पहले सेट में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए तात्याना मारिया को शिकस्त देकर दूसरे दौर में जगह बनायी। दो सप्ताह पहले फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने के बाद अपना पहला मैच खेल रही स्वियातेक ने ग्रास-कोर्ट विशेषज्ञ मारिया पर 5-7, 6-2, 6-0 से जीत दर्ज की। पोलैंड की इस खिलाड़ी के सामने दूसरे दौर में जिल टीचमन की चुनौती होगी। स्विट्जरलैंड की टीचमन ने अमेरिका की क्लेयर लियू को 3-6, 6-3, 6-4 मात दी। अमेरिका की एम्मा नवारो ने अर्जेंटीना की नादिया पोडोरोस्का पर 6-2, 6-0 से आसान जीत दर्ज की। दूसरे दौर में उनका मुकाबला फ्रांस की एलिजे कोर्नेट से होगा। इसके अलावा चौथी वरीयता प्राप्त मेयर शेरिफ ने जर्मनी की ऐना-लेना फ्रीडसैम को 4-6, 6-4, 7-5 तो वहीं कतेरीना सिनियाकोवा ने सातवीं वरीयता प्राप्त एलिसबेटा कोकियारेटो को 6-3, 6-4 से हराया। बियांका आंद्रेस्कू ने ब्रिटेन की सोनाय कार्तल को 6-2, 3-6, 7-5 से पराजित किया।

पृथ्वी के खिलाफ सपना के लगाये आरोपों को पुलिस ने झूठा बताया

मुंबई । क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के खिलाफ सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर सपना गिल के छेड़छाड़ के आरोपों को मुम्बई पुलिस ने गलत करार दिया है। इस मामले में जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। वहीं पुलिस द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद सपना के वकील अली काशिफ खान ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें कथित विवाद का वीडियो फुटेज पेश करने की अनुमति दी जाए, जिसे गिल के दोस्त ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। उन्होंने पब के बाहर हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज लेने की भी मांग की। इसपर अदालत ने पुलिस को पूरी घटना की फुटेज सौंपने को कहा और मामले को 28 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। सपना ने अंधेरी में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष छेड़छाड़ और बदसलूकी एक शिकायत दर्ज की थी और क्रिकेटर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इसी को लेकर पुलिस ने अदालत को बताया कि पब के सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चलता है कि सपना और उसका दोस्त शोबित ठाकुर नशे में थे और नाच रहे थे।

विश्वनाथन आनंद की अगुवाई वाली 'गैंजेज ग्रैंडमास्टर' ने 'त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स' को हराया

दुबई। भारत के पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के नेतृत्व में 'गैंजेज ग्रैंडमास्टर्स' ने यहां 'ग्लोबल शतरंज लीग (जीसीए)' के शुरुआती सत्र में 'त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स' को 14-2 के बड़े अंतर से हराया। सोमवार रात को खेल गये इस मुकाबले में 'गैंजेज ग्रैंडमास्टर्स' के छह में से चार खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की जबकि बाकी के दो मुकाबले बराबरी पर छूटे। आनंद के खिलाफ लेवोन अरोनियन ने मैच को लंबा खींचने पर ध्यान दिया ने इस भारतीय दिग्गज ने उनकी चुनौती को खत्म करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। एक अन्य मैच में एसजी एल्पाइन वॉरियर्स को बलान अलास्कन नाइट्स ने 10-9 से हराया।गैंजेज ग्रैंडमास्टर्स जीसीएल की तालिका में शीर्ष पर है जबकि एसजी एल्पाइन वॉरियर्स दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमों के एक समान 12 अंक है लेकिन गैंजेज ग्रैंडमास्टर्स ने अधिक गेम प्वाइंट बनाये है।

आईसीसी विश्व कप क्रिकेट का मेजबान बनकर गर्व का अनुभव कर रहे : जय शाह

-विश्व कप का कार्यक्रम जारी करते हुए खुशी हो रही : एलार्डिस

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सचिव जय शाह ने आईसीसी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि इसकी मेजबानी मिलना हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात है। शाह ने कहा, ''हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करते हुए भारत के विभिन्न शहरों में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होगा सम्मान के साथ ही गर्व की बात है।

उन्होंने कहा, ''भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह रहता है। मुझे भरोसा है कि यहां और विदेशों में प्रशंसक साल 2011 के बाद पहली बार टूर्नामेंट की भारत में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथ ही कहा कि मैं सभी टीमों को उनकी तैयारियों के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। हम एक और रोमांचक टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार हैं।

वहीं आईसीसी के मुख्य कार्यकारी ज्योफ एलार्डिस ने कहा, हमें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का कार्यक्रम जारी करते हुए खुशी हो रही है, जो किसी भी वैश्विक आयोजन से पहले हमेशा एक बड़ा अवसर होता है। उन्होंने कहा, ''हमें उम्मीद है कि दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसक अब तक के सबसे बेहतरीन पुरुष क्रिकेट विश्व कप का हिस्सा होंगे और हम जानते हैं कि भारत में टीमें एक अनोखे वातावरण का आनंद लेंगी।

इस विश्व कप में दुनिया भर की दस टीमें शामिल होंगी। ये टूर्नामेंट पांच अक्टूबर से 19 नवंबर तक 10 स्थानों पर खेला जाएगा। इसमें मैचों का आयोजन बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में होगा। अहमदाबाद में टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच होने के साथ ही 19 नवंबर को होने वाला फाइनल भी खेला जाएगा। अभ्यास मैच गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम व हैदराबाद जैसे स्थलों पर भी खेले जाएंगे। विश्व कप सुपर लीग के माध्यम से 46 दिवसीय आयोजन के लिए आठ टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है, जबकि अंतिम दो स्थान जिम्बाब्वे में जारी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर द्वारा तय किए जायेंगे।

टूर्नामेंट में पिछली बार के राउंड-रॉबिन

प्रारूप को बरकरार रखा गया है। सभी टीमें कुल 45 लीग मैचों में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। लीग चरण के अंत में शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो 15 नवंबर को मुंबई में और 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अतिरिक्त दिन आरक्षित किए गए हैं।

विजय के साथ इंटीमेट सीन करेगी तमन्ना

एक्ट्रेस ने बताई लस्ट स्टोरीज 2 की वो बात

फिल्म लस्ट स्टोरीज़ 2 में तमन्ना भाटिया विजय के साथ इंटीमेट सीन करती नजर आएंगी। तमन्ना आजकल विजय वर्मा के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चे में हैं और दूसरा कारण है उनकी आने वाली फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 ।हाल ही में तमन्ना ने इंडस्ट्री में खुद को साबित करने की बात कही थी। साथ ही एक्ट्रेस ने अपने करियर में लंबे समय तक इंटीमेट सीन न करने और आखिरकार इसके लिए तैयार होने की भी बात कही।

तमन्ना भाटिया ने इंटीमेट सीन्स से जुड़ी बातें की और बताया कि कैसे वह स्क्रीन पर कुछ भी न करने की मानसिकता से बाहर निकलने में कामयाब रहीं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जब 2018 में लस्ट स्टोरीज़ सामने आई तो वह उसकी बहुत बड़ी फैन थीं। उन्होंने कहा कि एक एक्टर के लिए उस तरह की सुरक्षा महसूस करना बहुत जरूरी है। उसी पल से, विजय वर्मा ने उन्हें सेफ महसूस कराया कि वह कुछ भी कहने, कुछ करने या एक तरीका बताने से डरती नहीं थी। तमन्ना ने आगे कहा कि विजय ने इसे इतना आसान बना दिया और यह कुछ ऐसा है जो उन्हें उनके बारे में पसंद है।

उन्होंने कहा, मेरे जैसे एक्टर के लिए, क्योंकि मैंने बहुत तरह के सिनेमा किए हैं, मैं सबसे पहले लस्ट स्टोरीज़ 2 की फैन हूं। इसने मुझे वास्तव में एक फीमेल एक्टर के रूप में दिखाया, जैसी कहानियां लोग देखना चाहते हैं। इसे करने में शर्म धीरे-धीरे दूर हो रही है क्योंकि हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर कोई डेवलप हो रहा है। तो, मैं वह पहली दर्शक थी जिसने इसे पसंद किया। मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे याद है कि मेरे जानने वाले सभी लोगों ने इसे देखा था और सभी को ये पसंद आई थी।

आलिया और रणवीर कर रहे एक साथ काम

अपकमिंग फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में आलिया और रणवीर साथ काम कर रहे हैं। इसमें धर्मेंद्र, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, जया बच्चन जैसे पॉपुलर स्टार भी शामिल हैं। फैंस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में धर्मेंद्र ने आलिया भट्ट के साथ एक बेहद प्यारी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो में देखा जा सकता है कि आलिया ने धर्मेंद्र के कंधे पर हाथ रखा है, दोनों सर जोड़ कर कोई फोटो देख रहें हैं। एक्टर ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'दोस्तों, लविंग आलिया मुझे मेरे रोमांटिक अतीत की झलक दिखा रहीं है!रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।' यह फोटो शायद फिल्म के किसी सीन से ली गई है। फैंस इस क्यूट फोटो पर खूब प्यार बरसा रहें हैं। बता दें कि करण जौहर की अपकमिंग फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।

एक्टिंग के शुरुआती दौर में क्या-क्या झेलना पड़ा शोभिता को

अदाकारा शोभिता धुलिपाला ने साल 2016 में आई थ्रिलर फिल्म रमन राघव 2.0 से बी टाउन में तहलका मचा दिया था। अपने हुस्न के कारण एक्ट्रेस आज भी चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं। मगर एक बार उनको मुंह पर ही रिजेक्शन का चांटा मारा दिया गया था।

इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया है। इंटरव्यू में शोभिता धुलिपाला ने बताया कि एक्टिंग के शुरुआती दौर में उनको क्या-क्या झेलना पड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि जब वो एक विज्ञापन के ऑडिशन के लिए गई थीं। तब कैसे लोगों ने उनके स्किन टोन पर कमेंट किया था। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया।

एक्ट्रेस ने बताया, जब आप कोई चीज शुरू करते हो तो सबकुछ एक जंग होती है। मैं फिल्मों से नहीं थी। मुझे याद है कि कि जब मैं एक एड का ऑडिशन देने गई थी तो मुझे कई बार बोला गया कि आप गोरी नहीं हैं। ऐसी चीजें थीं जो आप एड लेवल पर देखते हैं, जहां मुझे मेरे चेहरे पर बोला गया था कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं निराश थी ।शोभिता ने आगे बताया कि उन्हें लोगों ने घटिया कमेंट भी किया, जिससे उन्हें इन्सल्टेड फील हुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें बाद में एहसास हुआ कि लोगों का सुंदरता के प्रति नजरिया बहुत छोटा और एकतरफा है।

हालांकि इन सब बातों से उन पर कोई असर नहीं हुआ। वह इंडस्ट्री में काम करती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स पर ध्यान दिया। न कि सुंदरता पर। और आज सब उन्हें उनकी उसी स्किल्स के लिए जानते-पहचानते हैं। बता दें कि 30 जून को ओटीटी पर रिलीज होने वाली द नाइट मैनेजर सीजन 2 में शोभिता धूलिपाला एक बार फिर चार चांद लगाने के लिए बेताब हैं। वो अपने शानदार अभिनय के लिए तो जानी जाती ही हैं। उससे पहले उन्होंने 2013 में मिस इंडिया अर्थ का खिताब भी अपने नाम किया हुआ है।

मैं बॉलीवुड में बिलॉन्ग करता हूं: अनिल कपूर

बॉलीवुड में 40 साल पूरे करने पर अभिनेता अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के एक दृश्य का वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन दिया, आज एक एक्टर और इंटरटेनर के रूप में मेरे 40 साल पूरे हो गए। दर्शकों, आपकी स्वीकृति, प्यार और आशीर्वाद के 40 साल पूरे हो गए। उन्होंने लिखा, वे कहते हैं कि जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है, तो समय यूं ही निकल जाता है.. कोई आश्चर्य नहीं कि चार दशक पलक झपकने जैसा लगता है।



मैं यहां बिलॉन्ग करता हूं, मुझे यही करना है और मुझे यही बनना चाहिए। उन्हें बड़ा बनाने में सहायता करने वालों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने लिखा- इतने सारे लोगों ने मुझे जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की है, लेकिन मैं विशेष रूप से दिवंगत बापू साहब, मेरे भाई बोनी कपूर और मेरे पिता सुरिंदर कपूर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और वो7दिन में मुझे पहला मौका दिया.. मैं एक नवागंतुक का स्वागत करने में उनकी कृपा के लिए नसीरुद्दीन और पद्मिनी कोल्हापुरी का भी सदैव आभारी हूं। उन्होंने कहा, उनके स्टारडम ने मुझे उम्मीद से कहीं अधिक चमकाया। आज मैं जो कुछ भी हूं उसका श्रेय इन दिग्गजों और आप सभी से मिले प्यार और स्वीकृति को जाता है।

आई लव यू का प्रमोशन करेगी रकुलप्रित

बिग बॉस ओटीटी-2 के वीकेंड का वार एपिसोड में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म आई लव यू का प्रमोशन करने आएंगी। क्या रकुल प्रीत गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आएंगी, या वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल होंगी, फिलहाल, यह खुलासा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, मैं बिग बॉस ओटीटी पर पहले वीकेंड का वार का हिस्सा बनने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं। मैं शो की बहुत बड़ी फैन हूं और हमेशा वीकेंड एपिसोड देखने की कोशिश करती हूं! एक्ट्रेस ने कहा, मैं सभी कंटेस्टेंट्स से मिलने और सलमान सर के साथ समय बिताने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। सलमान सर को एक्शन में देखना बहुत मजेदार होने वाला है, और मैं स्पेशल ट्विस्ट के साथ वीकेंड के वार में आऊंगीबिग बॉस ओटीटी 2 और आई लव यू जियोसिनेमा पर स्ट्रीमिंग हो रही है।

प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में आए बदलाव मुझे पसंद: इलियाना

एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने कहा कि उन्हें कभी-कभी अच्छा महसूस नहीं होता है, लेकिन उनका सपोर्ट सिस्टम, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, वे उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि मैं अपने अंदर एक छोटे इंसान को बना रही हूं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत से लोग आपके वजन को लेकर कमेंट करते हैं। एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी के दौरान अपने वजन बढ़ने के बारे में बात की। इलियाना इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन में अपन फैंस के सवालों का जवाब दे रही थी। इलियाना ने कहा कि जब आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो उनसे भी कोई मदद नहीं मिलती है। उन्हें हर बार आपका वजन लेना पड़ता है इसलिए यह हर बार आपके दिमाग में रहता है। उन्होंने आगे कहा, मैं बस यह कहना चाहती हूं कि पिछले कुछ महीनों में मेरे शरीर में जो बदलाव आया है वह मुझे पसंद है। यह एक बहुत अद्भुत जर्नी है। और हां, मैं इंसान हूं और ऐसे भी दिन आते हैं जब आपको अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन मेरे पास कमाल का सपोर्ट सिस्टम और लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं और मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अपने अंदर एक छोटे इंसान को बना रही हूं।

फिल्म इमरजेंसी का टीजर जारी

फिल्म इमरजेंसी का टीजर जारी किया गया है। यह फिल्म इसी साल 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इमरजेंसी का निर्देशन और निर्माण कंगना रनौत ने किया है, स्क्रीनप्ले रितेश शाह की है और कहानी कंगना की है। इसमें कंगना भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में हैं। फिल्म में दिवंगत सतीश कौशिक, अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, महिमा चौधरी और मिलिंद सोमन भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। एक्ट्रेस-फिल्ममेकर कंगना रनौत की इस फिल्म के बारे में बात करते हुए, कंगना ने कहा, इमरजेंसी हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और काले अध्यायों में से एक है जिसे युवा भारत को जानना आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण कहानी है और मैं अपने सुपर-टैलेंटेड एक्टर्स जैसे स्वर्गीय सतीश जी, अनुपम जी, श्रेयस, महिमा और मिलिंद को इस क्रिएटिव जर्नी को एक साथ शुरू करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं भारत के इतिहास के इस असाधारण प्रसंग को बड़े पर्दे पर लाने के लिए उत्साहित हूं।